



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2359]

No. 2359]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 2012/अग्रहायण 16, 1934

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 2012/AGRAHAYANA 16, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2012

**का.आ. 2859(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2757(अ), तारीख 8 दिसम्बर, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 के 30.340 कि.मी. से 102.000 कि.मी. (सोलापुर-बीजापुर सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 22 जनवरी, 2012 को "टाइम्स ऑफ इण्डिया (बंगलौर संस्करण)" और "विजय कर्नाटक (हुब्ली संस्करण)" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (!) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 के 30/340 कि. मी. से 102/000 कि. मी. तक (सोलापुर बीजापुर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
				3 क में प्रकाशन के अनुसार	जेएम और आर/आर ओ आर के अनुसार				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	बीजापुर	1) इंडी	1) धुलखेड	8/1	8/1	निजी	कृषि (सिंचन)	848	सुभाष रामचंद्र कुलकर्णी
				8/2	8/2	निजी	कृषि (सिंचन)	967.74	हणमतराय जेतप्पा नेतूरे
				9	9 प्लॉट नं. 1	निजी	कृषि (सिंचन)	1127	1) कुसप्पा शिवरुद्रप्पा कुरबर 2) शिवरुद्र कुसप्पा कुरबर 3) कृष्णा भाग्य जल निगम लि. बेंगलूर 4) काशीबाई अमरसिद्ध कुरबर 5) रतीकांत अमरसिद्ध कुरबर (मौ/पा. काशीबाई) 6) भिमप्पा अमरसिद्ध कुरबर (मौ/पा. काशीबाई) 7) ज्योती अमरसिद्ध कुरबर (मौ/पा. काशीबाई)
				10	10/1 अ	निजी	कृषि (सिंचन)	228	1) पार्वती तम्भाराय मैरगोड 2) निलकंठ तम्भाराय मैरगोड 3) श्रीशैल तम्भाराय मैरगोड 4) राजकुमार तम्भाराय मैरगोड, (मौ/पा. पार्वती)
				10/1 ब	निजी	कृषि (शुष्क)		72	रेवप्पा सिध्दप्पा मैरगोड
				11	11/1	निजी	कृषि (शुष्क)	195	1) शिवपुत्र निगप्पा नावी 2) काशीनाथ कल्लप्पा नावी 3) भिमाशंकर महादेव वालीकर
				11/2	निजी	कृषि (शुष्क)			
				11/3	निजी	कृषि (शुष्क)			
				12	12/1	सरकारी	कृषि (शुष्क)	375	1) ता. समाज कल्याण इलाके, इंडी 2) चेअरमन ता.पंचायत कमिटी 3) चेअरमन, धुलखेड बैंकवर्ड क्लास होसिंग सोसायटी
				12/2	सरकारी	कृषि (शुष्क)			
				13	13/1	निजी	कृषि (शुष्क)	1284	विठ्ठल लक्ष्मण पाटील 1) रामकुण्ठन तिप्पण्णा पाटील 2) राजेंद्र 3) शरणप्पा 4) सरोजनी आनंदराय पाटील 5) सतीश आनंद पाटील 6) त्रिवेणी लक्ष्मीकांत वालीकर 7) सुशांत आनंदराय पाटील 8) शिवानंद अण्णासाय पाटील 9) विश्वनाथ आनंदराय पाटील 10) शंकर नारायणभट्ट जोशी 11) श्रीनिवास नारायणभट्ट जोशी 12) श्रीकांत पांडुरंग जोशी 13) नारायण शेषभट्ट जोशी 14) चेअरमन, धुलखेड बैंकवर्ड क्लास होसिंग सोसायटी
				13/2	निजी	कृषि (शुष्क)			
				13/3	निजी	कृषि (शुष्क)			
				13/4 अ	निजी	कृषि (शुष्क)			
				13/4 ब	निजी	कृषि (शुष्क)			
				13/4 क	निजी	कृषि (शुष्क)			
				13/4 ड	निजी	कृषि (शुष्क)			
				13	सरकारी	कृषि (शुष्क)			
				14	14/1 अ	निजी	कृषि (सिंचन)	1001	1) पदमावती भिमराव कुलकर्णी 2) प्रकाश भिमराव कुलकर्णी 3) मुकुंद भिमराव कुलकर्णी 4) सुधेद भिमराव कुलकर्णी 5) रुपा श्रीरंग कुलकर्णी
				14/2 अ	निजी	कृषि (सिंचन)		405	1) महादेव नागप्पा कभार 2) श्रीमंत नागप्पा कभार
				14/2 ब	निजी	कृषि (सिंचन)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				14/3	निजी	कृषी (सिंचन)	343.89	1) विवेकानंद त्रिपण्णा पाटील
				15/2	15/2	निजी	कृषी (शुष्क)	1008
				15/5	15/5	निजी	कृषी (शुष्क)	840
				15/8	15/8 अ	निजी	कृषी (शुष्क)	1464
								1) रामा श्रीमता कोडते, (मौ/पा. महादेवी)
								2) मंजुनाथ
								3) ललिता
								4) भारती
								5) अशोक श्रीमंत कोडते, (मौ/पा. महादेवी)
					सरकारी	मार्ग	91.83	सरकारी मार्ग
				16/3	16/3	निजी	कृषी (सिंचन)	198
								1) बाजीराव भिमराव बंडगर
								2) कृष्णा भाग्य जल निगम लि. बंगलोर
				19	19	सरकारी	कृषी (शुष्क)	102
								पी.डब्ल्यू.डी. मुरुम कॉरी
				20/1	20/1	निजी	कृषी (सिंचन)	280
				20/2	20/2	सरकारी	मार्ग	100
				20/5	20/5	निजी	कृषी (सिंचन)	198
				20/6	20/6	निजी	कृषी (सिंचन)	284
				22	22/पै 1	निजी	कृषी (सिंचन)	1815.16
				92	92	निजी	कृषी (सिंचन)	8918.14
								1) बसवराज शिवण्णा कुरे
								2) हणमंतराय शिवण्णा कुरे
								3) सुशिलाबाई श्रीरत्न उमरजी
				93	93/1	निजी	कृषी (सिंचन)	2175.94
					93/2	निजी	कृषी (सिंचन)	
					93/3	निजी	कृषी (सिंचन)	
					93/4	निजी	कृषी (सिंचन)	
				94	94/1 अ	निजी	कृषी (सिंचन)	1480
					94/1 ब	निजी	कृषी (सिंचन)	
								1) पांडुरंग नारायण जोशी
								2) सिध्दप्पा वामनप्पा हिरेंकुरुबर
								1) कातवा मोहन हिरेंकुरुबर
								2) हणमंत मोहन हिरेंकुरुबर
								3) शंकर मोहन हिरेंकुरुबर
								4) शंकरेष्वा मोहन हिरेंकुरुबर
					94/2 अ	निजी	कृषी (सिंचन)	
					94/2 ब	निजी	कृषी (सिंचन)	
								1) भुताली रामचंद्रा पुजारी
								1) शरणप्पा रामचंद्रा पुजारी
								2) सिध्दप्पा वामनप्पा हिरेंकुरुबर
					94/3 अ	निजी	कृषी (सिंचन)	480
					94/3 ब	निजी	कृषी (सिंचन)	
				96	96	सरकारी	कृषी (शुष्क)	86
				97	97/1	निजी	कृषी (शुष्क)	610
					97/2	निजी	कृषी (शुष्क)	
								1) शंकर महादेव कोडते
								1) राजशेखर कल्लप्पा कोडते
								2) हणमंत कल्लप्पा कोडते
								3) गायत्री प्रकाश कोडते
								4) विठाबाई कल्लप्पा कोडते
				98	98	निजी	कृषी (शुष्क)	640
				99	99	निजी	गैरकृषी (वाणिज्य)	924
								1) विजयलक्ष्मी शिवानंद नाशी
				100	100	निजी	कृषी (सिंचन)	1092
				101	101	निजी	कृषी (शुष्क)	1060.76
								1) कलमेशी हणमंतराय कोलकर
								1) सरस्वती सदाशिव कोडते
								2) अन्साबाई समगीड रगते
								3) सुतोचना बाबुराय कोडाहीन
								4) शिवानंद सदाशिव कोडते
								5) प्रवानंद सदाशिव कोडते
								6) इंदुबाई दरेप्पा कटटीमनी
								7) सिद्धाम दरेप्पा कटटीमनी
								8) निजगुणी
								9) विठोबा
								10) अर्जुन
								11) जगन्नाथ रामचंद्र कोडते
								12) नागप्पा रामचंद्र कोडते
								13) मंजुनाथ रामचंद्र कोडते

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								14) ललिता 15) भारती श्रीमंत कोडते (9 से 13 मां महादेवी) 16) शंकर रामचंद्र कोडते 17) रामा श्रीकांत कोडते 18) अशोक रामचंद्र कोडते (मां / पा महादेवी) 19) चदाभागा उमेश धुलखेड 20) रोहिणी चंद्रकांत कटटीमनी 21) भिमाशंकर उमेश धुलखेड 22) महेश्वर उमेश धुलखेड 23) राजेश्वर उमेश धुलखेड 24) शांतबाई शंकर कोडते 25) रेणुका शिवलिंग गवळी
109	109			निजी	कृषी (शुष्क)		2266.56	1) तुकाराम चन्नाप्पा अहिरवडगी
110	110 / 2			निजी	कृषी (शुष्क)		3262.42	1) रौतजा शिवानंद पाटील
111	111 / 1			निजी	कृषी (शुष्क)		3510.00	1) सुर्यकांत रेवणा बारखेत 2) रुपाला कालू राठोड 1) दुग्धप्पा अरुण पंडिता अकोला
	111 / 2			निजी	कृषी (शुष्क)			
112	112 / 5			निजी	कृषी (शुष्क)		1626	1) शिवशंकर निगण्णा भैरगोड 2) परमेश्वर निगण्णा भैरगोड
	112 / 6			निजी	कृषी (शुष्क)			1) रजिन्द्र पद्म चव्हाण
132	132 / 1			निजी	कृषी (शुष्क)		2354.61	1) संगण्णा भिमराय इक्कलकी 2) लक्ष्मण भिमराय इक्कलकी
	132 / 2			निजी	कृषी (शुष्क)			1) निगण्णा भिमराय इक्कलकी
133 / 1 अ	133 / 1 अ			निजी	कृषी (सिंचन)		1060.91	1) रेवणा सिद्धप्पा भैरगोड
133 / 1 ब	133 / 1 ब			निजी	कृषी (सिंचन)		1081	1) भिमाशंकर रेवणा भैरगोड 2) प्रिस्टेंट कमिशनर कमर्शिअल टॅक्स डिपार्टमेंट बिजापूर (सेल टॅक्स इनवेस्टीगेशन ठाणा धुलखेड)
133 / 2	133 / 2			निजी	कृषी (सिंचन)		2069	1) सदाशिव परसप्पा भैरगोड 2) असिस्टेंट कमिशनर कमर्शिअल टॅक्स डिपार्टमेंट, बिजापूर
139	139 / 3			निजी	कृषी (शुष्क)		25	श्रीशल रेवणसिद्धप्पा वाली (ओ.एस. नं. 278 / 2006 पेडींग इन प्रिन्सिपल सिविल जज ए इंडी)
144	144 / 1			निजी	कृषी (शुष्क)		1356.00	1) अधिकार अभिलेख के अनुसार 2) बसवराज हणमंतप्पा कोल्गी 3) चंद्रकांत शिवण्णा तलवार
	144 / 2			निजी	कृषी (शुष्क)			
	144 / 3			निजी	कृषी (शुष्क)			
151	151			सरकार	कृषी (शुष्क)		8.00	पी डब्ल्यू डी मुरुम कांरी
155 / 2 ब	155 / 2 ब			निजी	कृषी (शुष्क)		1035	1) श्रीकांत शिवराय पुजारी
190	190 / 1			निजी	कृषी (सिंचन)		132	1) रुद्रप्पा मारुती अहिरवडगी 1) दरेप्पा मारुती अहिरवडगी 1) महादेव मारुती अहिरवडगी 1) बसप्पा मारुती अहिरवडगी
	190 / 2			निजी	कृषी (सिंचन)			
	190 / 3			निजी	कृषी (सिंचन)			
	190 / 4			निजी	कृषी (सिंचन)			
191	191			सरकार	कृषी (शुष्क)		74	पी डब्ल्यू डी मुरुम कांरी
192	192 / 1			निजी	कृषी (शुष्क)		1090	1) शंकर चनगोड नगारे 1) भिमाशंकर चनगोड नगारे
	192 / 2			निजी	कृषी (शुष्क)			
193	193			सरकार	कृषी (शुष्क)		53	पी डब्ल्यू डी मुरुम कांरी
228 / 6	228 / 6			निजी	कृषी (सिंचन)		120	1) गणपती लक्ष्मण पाटील 2) कृष्णा भाग्य जल निगम लि वेगतोर
228 / 7	228 / 7			निजी	कृषी (सिंचन)		61	1) शिवयोफी महादेव नगारे
	228 / 7 ब			निजी	कृषी (सिंचन)		60	1) मिमशा जानप्पा नगारे
228 / 8 अ	228 / 8 अ			निजी	कृषी (सिंचन)		30	1) सुभाष यत्तगोड हरीजन
228 / 9	228 / 9			निजी	कृषी (सिंचन)		575	1) श्रीशल चंदण्णा बिरादार
265	265 / 1 अ			निजी	कृषी (सिंचन)		3020	1) गंगाधर रामचंद्र बिरादार
	265 / 1 ब			निजी	कृषी (सिंचन)		1550	1) शंकरप्पा लक्ष्मण बिरादार
	265 / 1 क			निजी	कृषी (सिंचन)		1394	1) श्रीशल चंदण्णा बिरादार
	265 / 1 ड			निजी	कृषी (सिंचन)		630	1) सुरेश चंदण्णा बिरादार
	265 / 2			निजी	कृषी (सिंचन)		550	1) लक्ष्मण बलवंत पाटील 2) चन्नाप्पा बलवंत पाटील

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3) सुभाषचंद्र बलवंत पाटील
								4) सुर्यकांत बलवंत पाटील
								5) कुसुमावती रामचंद्र कोळी
				287/4	287/4	निजी	कृषी (सिंचन)	30
								1) सुमदा ईश्वर बिरादार
								2) कल्लया ईश्वर बिरादार
								3) दरेया ईश्वर बिरादार
								4) काशीबाई सत्यण्णा बिरादार
								5) देवका सत्यण्णा बिरादार
								6) अबादास सत्यण्णा बिरादार
								7) अजली सत्यण्णा बिरादार
								8) मल्लिकार्जुन ईश्वर बिरादार
				287/6	287/6	सरकारी	कृषी (सिंचन)	546.5
				350/1	350/1	निजी	कृषी (शुष्क)	1666.37
				351	351	निजी	कृषी (शुष्क)	460
				352	352	निजी	कृषी (शुष्क)	129
						सरकारी	मार्ग	154
				353/अ	353/अ	निजी	कृषी (शुष्क)	40
				354	354/1	निजी	कृषी (शुष्क)	900
					354/4			2088
								1) गणपती रामकृष्ण पत्तार (चाचा सिद्राम)
								2) सदाशिव शंकरप्पा कोंचगर
								3) रुद्रप्पा गणपती पत्तार
								4) वसंत सिद्राम पत्तार
				355/1	355/1 अ	निजी	कृषी (शुष्क)	1170
					355/1 ब			
								1) निगप्पा सिद्राम तल्ली
								1) महेंद्रकुमार रंगराव कांबळे
								2) प्रशांत रंगराव कांबळे
				356	356	निजी	कृषी (शुष्क)	20.46
				376	376	निजी	कृषी (शुष्क)	90
						सरकारी	मार्ग	180.74
				377	377/1	निजी	कृषी (शुष्क)	4689
				378/अ	378/अ	निजी	कृषी (शुष्क)	80
				381	381/1	निजी	कृषी (शुष्क)	100
					381/2			
					381/3			
					381/4			
				382 अ	382 अ 1	निजी	कृषी (शुष्क)	4212
					382 अ 2	निजी	कृषी (शुष्क)	1092
				382/ब	382/ब	सरकारी	कृषी (शुष्क)	484.78
						निजी	कृषी (सिंचन)	587.10
				4	4	निजी	कृषी (सिंचन)	1455
				5	5			
				6	6	निजी	कृषी (सिंचन)	2077.8
								1) धामण्णा गुंडप्पा तलवार
								2) मदेप्पा गुंडप्पा तलवार
								3) श्रीमता गुंडप्पा तलवार
								4) सिंहदप्पा दायमप्पा तलवार
								5) रामण्णा होवण्णा तलवार
				7	7	सरकारी	कृषी (शुष्क)	490
				8	8	निजी	कृषी (सिंचन)	2000
				9	9	निजी	कृषी (सिंचन)	1728
				10	10	निजी	कृषी (सिंचन)	853.50
				11	11/अ	निजी	कृषी (सिंचन)	2287
					11/ब	निजी	कृषी (सिंचन)	
				12	12/1	निजी	कृषी (सिंचन)	1222.50
					12/2	निजी	कृषी (सिंचन)	
				13	13/1अ	निजी	कृषी (सिंचन)	450
					13/1ब	निजी	कृषी (सिंचन)	
					13/2	निजी	कृषी (सिंचन)	
				51	51	निजी	कृषी (शुष्क)	333.30
								1) भगवतराय मदेप्पा बिरादार

2) इलसांगी

3) ऐलंगी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				53	53/1 अ	निजी	कृषी (शुष्क)	310	1) रमेश कल्ल्या येल्मेली
					53/1 ब	निजी	कृषी (शुष्क)		1) प्रकाश मल्ल्या येल्मेली
					53/1 क	निजी	कृषी (शुष्क)		2) दाक्षायणी मल्ल्या येल्मेली. (मो/पा. महादेवी येल्मेली)
					53/2	निजी	कृषी (शुष्क)		1) कल्ल्या इरण्या येल्मेली
				54	54	निजी	कृषी (शुष्क)	57	1) गौराबाई इरण्या येल्मेली
				80	80/2	निजी	कृषी (शुष्क)	484.30	1) मदेप्पा कल्ल्या बिरादार
					80/3	निजी	कृषी (शुष्क)		1) मिमराय इरण्या येल्मेली
					80/4	निजी	कृषी (शुष्क)		1) कल्ल्या इरण्या येल्मेली
									1) महादेवी मल्ल्या येल्मेली
									2) प्रकाश मल्ल्या येल्मेली. (मो/पा. महादेवी)
									3) दाक्षायणी मल्ल्या येल्मेली
				81	81	सरकारी	कृषी (शुष्क)	873	सरकारी मुरुम कौरी
				82	82	निजी	कृषी (शुष्क)	1417.80	1) निलकंठ शांतप्पा गुरवा
				83	83	सरकारी	कृषी (शुष्क)	548.60	सरकारी मुरुम कौरी
				84	84	निजी	कृषी (शुष्क)	1390	1) निलकंठ शांतप्पा गुरवा
				85	85	निजी	कृषी (सिंचन)	210	1) इरण्या मदेप्पा थंबा
				86	86	सरकारी	कृषी (शुष्क)	446.60	सरकारी मुरुम कौरी
				87	87/1	निजी	कृषी (सिंचन)	3723.10	1) सोमण्णा लक्ष्मण तलवार
					87/2	निजी	कृषी (सिंचन)		1) लक्ष्मीबाई निगप्पा तलवार
									2) अबण्णा जेटयप्पा तलवार
									3) शिवपुत्र लायप्पा
									4) मजुला निगप्पा तलवार
									5) अंजली निगप्पा तलवार
									6) योगेश निगप्पा तलवार
									7) गौरेश निगप्पा तलवार. सि. न. 4 व 5 (मो/पा. लक्ष्मीबाई)
					87/3	निजी	कृषी (सिंचन)		1) गुरप्पा लक्ष्मण तलवार
				88	88/1	निजी	कृषी (सिंचन)	243	1) निलकंठ शांतप्पा गुरवा
									2) निमण्णा शांतप्पा गुरवा
									3) अशोक शांतप्पा गुरवा
									4) मल्लिकार्जुन शांतप्पा गुरवा
									5) श्रीशैल शांतप्पा गुरवा
				90	90/1	निजी	कृषी (शुष्क)	1054.80	1) मुरुलरडडे सिद्धम पाटील
				91	91/1	निजी	कृषी (सिंचन)	1521	1) मल्लिकार्जुन यशवंत बिरादार
					91/2	निजी	कृषी (सिंचन)	368	1) इरण्या मल्लिकार्जुन बिरादार
					91/3	निजी	कृषी (सिंचन)	966.90	1) भगवंतराय महादेव बिरादार
				94	94	निजी	कृषी (सिंचन)	2015	1) मल्लिकार्जुन इरण्या पाटील
									2) शिवण्णा इरण्या पाटील
				95	95	सरकारी	कृषी (शुष्क)	348.20	सरकारी मुरुम कौरी
				96	96/1	निजी	कृषी (सिंचन)	55	1) चन्ण्या दरेप्पा बिसदार
				97	97/2	निजी	कृषी (शुष्क)	810	1) सरोजिनी संगप्पा गोमी
				165	165	सरकारी	कृषी (शुष्क)	252	सरकारी मुरुम कौरी
				166	166	निजी	कृषी (सिंचन)	7846	1) अण्णप्पा सिध्दाराय लोणी
				167	167/1	निजी	कृषी (सिंचन)	605	1) जेटयप्पा मल्ल्या समगार
					167/2	निजी	कृषी (सिंचन)	552	1) मदेप्पा मल्ल्या समगार
					167/3	निजी	कृषी (सिंचन)	925	1) सिध्दण्णा विठोबा बेली
				168	168	निजी	कृषी (शुष्क)	97	1) रेवणय्या बडय्या मठा
									2) बसय्या नुरुदय्या मठा
									3) रुदय्या शरणय्या मठा
				169	169	निजी	कृषी (शुष्क)	87	1) श्रीकांत हण्मण्णा हत्तीबेलगल
				178	178/1	निजी	कृषी (सिंचन)	2640	1) इरण्या मोनय्या हरीजन
					178/2	निजी	कृषी (सिंचन)		1) मोनय्या इरण्या हरीजन
						सरकारी	मार्ग	132	सरकारी मार्ग
			4) अर्जनाल	171	171	निजी	कृषी (सिंचन)	3312	1) रजाकसाब बादशहा मुल्ला
									2) मैनुद्दीन बादशहा मुल्ला
									3) सैफनसाब बादशहा मुल्ला
									4) मर्तुजा बादशहा मुल्ला
									5) इरमाईल बादशहा मुल्ला
				172	172	सरकारी	कृषी (शुष्क)	546	पी डब्ल्यु डी मुरुम क्वारी
				177 ब	177 ब 2	निजी	कृषी (सिंचन)	140	1) चिदानंद अडिबेप्पा बिरादार
					177 ब 3	निजी	कृषी (सिंचन)	96	2) श्रीशैल चिदानंद बिरादार

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				178 अ	178 अ	निजी	कृषी (सिंचन)	2784	1) चिदानंद अप्पण्णा बिरादार 2) सिद्धम अप्पण्णा बिरादार
				179 अ	179	निजी	कृषी (सिंचन)	1560	1) मल्लप्पा कल्लप्पा कन्नूर
				179 ब					
				193	193 / 2	निजी	कृषी (शुष्क)	2288.07	1) शकुंतला गोपाल श्रीशाड 2) मोनिका गोपाल श्रीशाड 3) विनोद गोपाल श्रीशाड 4) सविता गोपाल श्रीशाड 5) विश्वनाथ गोपाल श्रीशाड, मों/पा. शकुंतला
				194	194	निजी	कृषी (शुष्क)	2784	1) निगव्वा गुरप्पा श्रीशाड 2) कमलाबाई रेवप्पा श्रीशाड 3) अम्बाबाई रेवप्पा श्रीशाड 4) निर्मला रेवप्पा श्रीशाड मों/पा. कमलाबाई 5) सोमनिग रेवप्पा श्रीशाड, मों/पा. 6) गंगाबाई रेवप्पा श्रीशाड 7) भिमप्पा रामप्पा श्रीशाड, मों/पा. गंगाबाई 8) शैला रामप्पा श्रीशाड, मों/पा. गंगाबाई 9) मल्लप्पा गुरप्पा श्रीशाड 10) कस्तुरबाई गुरप्पा श्रीशाड 11) सिध्दप्पा गुरप्पा श्रीशाड 12) कमछाबाई गुरप्पा श्रीशाड 13) सुनंदव्वा गुरप्पा श्रीशाड
				195	195	निजी	कृषी (सिंचन)	1470	1) जयबुनबी मियासाब मुल्ला 2) शाहजॉन मियासाब मुल्ला
				196	196 / 1 अ 196 / 1 ब	निजी निजी	कृषी (शुष्क) कृषी (शुष्क)	2898	1) महिबूब बंदगीसाब मुल्ला 1) महमद शरीफ मुल्ला 2) जलसा महिबूब मुल्ला 3) इब्राहिमसा महिबूब मुल्ला मों/पा. जुबेदा 1) जैबुनबी मियासाब मुल्ला
					196 / 2	निजी	कृषी (शुष्क)		
				197 / 2	197 / 2 अ	निजी	कृषी (सिंचन)	77	1) चिदानंद अडीवेप्पा बिरादार 2) वनमाला चिदानंद बिरादार
					197 / 2 ब	निजी	कृषी (सिंचन)	14	1) लड्डुबा महमदसा मुल्ला 2) मल्लप्पा मल्लिकार्जुन बिरादार
				200 / 1	200 / 1	निजी	कृषी (सिंचन)	1740	1) शकुंतला गोपाल श्रीशाड
				200 / 2	200 / 2	निजी	कृषी (सिंचन)	1200	1) अन्नेश गुरुलिंगप्पा जिगजिवनगी
				200 / 3	200 / 3	निजी	कृषी (सिंचन)	2235.28	1) रामनिगप्पा गुरुलिंगप्पा जिगजिवणी
				201	201 / 1	निजी	कृषी (शुष्क)	256	1) शिवानंद विठोबा पुजारी 2) सिध्दलिंग विठोबा पुजारी 3) अरविंद विठोबा पुजारी 4) विठोबा भिमप्पा पुजारी 5) चंद्रशेखर विरेंद्र पुजारी
					201 / 2	निजी	कृषी (शुष्क)	140	1) अजय श्रीशैल पाटील
						सरकारी	मार्ग	86.58	सरकारी मार्ग
				202	202 / 8 202 / 7 202 / 8 202 / 9	निजी निजी निजी निजी	कृषी (शुष्क) कृषी (शुष्क) कृषी (शुष्क) कृषी (शुष्क)	102	1) पंचासरी विरसंगप्पा स्वामी 1) विकास नरसप्पा गिला 2) विकास नरसप्पा गिला 1) सोमशेखर पंडितराय बिरादार
				207	207	सरकारी	कृषी (शुष्क)	492	पी डब्ल्यू.डी. मुरुम कॉरी
						सरकारी	मार्ग	4.07	सरकारी मार्ग
				209	209 / 1 अ 209 / 1 ब 209 / 2	निजी निजी निजी	कृषी (सिंचन) कृषी (सिंचन) कृषी (सिंचन)	3708	1) बरसवत शिवशंकर भेत्री 1) जगदेव कल्लप्पा हुलजंती 1) निगव्वा रुदगीड बिरादार 2) अशोक भिमराय गम्बूर 3) राजेंद्र भिमराय गम्बूर 4) सतोष भिमराय गम्बूर
				220	220	सरकारी	कृषी (शुष्क)	532	पी डब्ल्यू.डी. मुरुम कॉरी
				221	221 / 1	निजी	कृषी (शुष्क)	1792	1) निल्लम्मा सिध्दप्पा खैन्नूर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				221 / 2	निजी	कृषी (शुष्क)	1137.24	1) शरणप्पा इरप्पा तंबा
				222	निजी	कृषी (सिंचन)	1000	1) अप्पासाहेब मादप्पा बिरादार
				223	223 / 1	निजी	2106	1) भगवंतराय मादप्पा बिरादार
					223 / 2	निजी		1) चंदकांत इरप्पा तंबा
					223 / 3	निजी		1) निलका परगाई बिरादार
		5) झलकी	1	1 / 2	सरकारी	गैरकृषी	342.72	ब्लॉक डेक्कलपमेंट ऑफीसर, इंडी
								1) नवीसाब माथप नदाफ
								2) काजेसाब बाबुराब मुल्ता
								3) वियामा महमद मुल्ता
								4) विश्वनाथ सिध्दप्पा कंवार
							765	1) बिरलेश्वर मंदिर
			2 / 1	2 / 1	निजी	कृषी (शुष्क)	184	1) पुंडलिक मल्लप्पा भोसले
								2) इंदुबाई श्यामराव पाचगे
			2 / 2	2 / 2	निजी	कृषी (शुष्क)	148.97	1) कादरिहेश्वर मठ
								2) सुरेश पुंडलिक बनसोडे
								जिला मध्यवर्ती सहकारी बँक
			2 / 7	2 / 7	निजी	कृषी (शुष्क)	112	1) संतोषकुमार लायण्णा नाशी
								2) संजयकुमार लायण्णा नाशी
			2 / 8	2 / 8	निजी	कृषी (शुष्क)	80	1) शंकरगौडा मुलनगौडा बिरादार
			4	4	निजी	कृषी (सिंचन)	64	1) रामचंद्र चन्नाप्पा पाटील (रामनगौडा)
			5	5	सरकारी	कृषी (शुष्क)	171	सरकारी निश्चिक्क बंगला
			6	6	निजी	कृषी (शुष्क)	706	1) माधव श्रीधर जहागिरदार
								2) गोविंद श्रीधर जहागिरदार
								3) मनोहर श्रीधर जहागिरदार
								4) रमेश श्रीधर जहागिरदार
								5) नारायण श्रीधर जहागिरदार
								6) कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
			7	7	सरकारी	कृषी (शुष्क)	546	कर्नाटका स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन
			8 / 1	8 / 1 अ	निजी	गैरकृषी	406	1) विकासराज विरय्या गुत्तदार
								2) अर्जुन होनप्पा मेतकरी
			8 / 2 इ 1	8 / 2 इ 1	निजी	कृषी (शुष्क)	672	1) मोहन रुद्रप्पा उकाती
			8 / 2 इ 2	8 / 2 इ 2	निजी	कृषी (शुष्क)		1) मरीयाबी जहागिर नदाफ
								2) महिबुज जहागिर नदाफ
								3) ममताज बाबुलाल नदाफ
								4) दौलताबाई हिदायतअली नदाफ
								5) इमाम जहागिर नदाफ
								6) जुबेदा रफीक नदाफ
			9	9	सरकारी	कृषी (शुष्क)	544	सरकारी मुरुम कोरी
			10 / 2	10 / 2	सरकारी	कृषी (शुष्क)	500	जिला पोलिस अधिक्षक, बिजापुर
			10 / 3	10 / 3	निजी	गैरकृषी (वाणिज्य)	320	1) श्रीमंत रेवप्पा कापसे
			11	11	सरकारी	कृषी (शुष्क)	240	सरकारी मुरुम कोरी
			13	13 / 1	निजी	कृषी (शुष्क)	603	1) बालाचारी कृष्णामट जहागिरदार
								इच्छुक व्यक्ती
								2) डॉ. संग
								3) रामाराव लक्ष्मणराव पवार
							60	1) शकुंतला गोपाल श्रीशाड
							40	1) श्रीमंत गिमशी श्रीशाड
							45	1) रमेश बसय्या गुत्तदार
							25	1) संगप्पा शिवप्पा दुधगी
							18	1) शंकर श्यामराव पाचगे
							30	1) माहेन रुद्रप्पा उकाती
							48	1) अमसिध्द रायप्पा पुजारी
								2) बेबीनंदन पुंडलिक पुजारी
							40	1) मनोज जपण्णा तोरगत
							21	1) मीलाराब इरमाईल पठाण
							21	1) इक्याल इरमाईल पठाण
							40	1) बाबुराय संगप्पा बिरादार
							40	1) श्रीमंत इरप्पा बदीगर
							44	1) मलकप्पा रामचंद्र कापसे
							44	1) श्रीमंत रेवप्पा कापसे



1	2	3	4	5	6	7	8	9
							90	1) अबुजा थिरेट पुजारी
							24	1) राजेंद्र विठ्ठल शेठ्टी
							24	1) राजेंद्र विठ्ठल शेठ्टी
							48	1) महानंदा विरणा तुप्पड
								2) विजयलक्ष्मी विरणा तुप्पड
								3) श्रीकांत विरणा तुप्पड
							98	1) सध्या तुकाराम पत्तेड
							25	1) अफजलखान अब्दुलरजाफ पठाण
							25	1) सिद्धाराम संगप्पा बिरादार
							63	1) रमेश बसय्या गुत्तेदार
							42	1) सिद्धाम मुरिगेप्पा बाली
							60	1) गुरुपाद चैनप्पा शिंपी
							26	1) विनायक सुरुप्पा सगाई
							38	1) गंगाधर गुरुपादप्पा बिरादार
							45	1) शिवशरण मल्लप्पा तुप्पड
							60	1) जमिया मस्जिद
							60	1) महानंदा विरणा तुप्पड
								2) विजयलक्ष्मी विरणा तुप्पड
								3) श्रीकांत विरणा तुप्पड
45	45			निजी	कृषी (सिंचन)		3110.93	1) बसनगौड विठ्ठलगौड पाटील
								2) विठ्ठलगौड चन्नप्पा पाटील
46	46			निजी	कृषी (सिंचन)		1421.61	1) महादेवी इरण्णा पाटील
47	47			निजी	कृषी (सिंचन)		895	1) रामण्णा यशवंत सगाई
								2) गुंडप्पा शिवसंगप्पा सगाई
								3) दुडप्पा शिवसंगप्पा सगाई
								4) विठ्ठल शिवसंगप्पा सगाई
56	56			निजी	कृषी (सिंचन)		2216.46	1) बसण्णा सकाराम सगाई
57	57			सरकारी	कृषी (शुष्क)		234	सरकारी मुरुम कौरी
58	58/1			निजी	कृषी (शुष्क)		667	1) मनोहर यशवंत चत्तरकी
	58/2			निजी	कृषी (शुष्क)		36	1) लक्ष्मण जवकप्पा अवारडी
61	61/2			निजी	कृषी (सिंचन)		177	1) रेणुकाबाई श्रीरौल सोनकनहल्ली
	61/4			निजी	कृषी (सिंचन)		5234.60	1) साहेबगौडा सोमण्णा बगली
62	62			निजी	कृषी (शुष्क)		386	1) शिवशंकर विठ्ठल मावीनहल्ली
								2) मल्लप्पा विठ्ठल मावीनहल्ली
63	63/23			निजी	कृषी (सिंचन)		12	1) नारायण पांडुरंग जहागिरदार
	63/24			निजी	कृषी (शुष्क)		114	1) बसवराज बिरप्पा नंदरगी
80	80/6			निजी	कृषी (शुष्क)		125	1) सुभाय शरणप्पा बगली
								2) यशवंत शरणप्पा बगली
								3) सुरेश चंद्रकांत बगली
82	82*			निजी	कृषी (सिंचन)		3926	1) गोपाल नागुराव कुलकर्णी
83	83			निजी	कृषी (सिंचन)		2488	1) रामा हुसेनी मादर
								2) सैदु गणपती कागर
								3) कमलव्या श्रीरौल बरूर
84	84			सरकारी	कृषी (शुष्क)		481	सरकारी मुरुम कौरी
85	85/1			निजी	कृषी (सिंचन)		517	1) अप्पासाब सनरा बिरादार
	85/2			निजी	कृषी (सिंचन)		463.70	1) अप्पासाब बसण्णा बिरादार
87	87/1			निजी	कृषी (शुष्क)		2664.96	1) नादगौड सोमण्णा बगली
	87/2			निजी	कृषी (शुष्क)			1) मिमाबाई बलराम पाचगे
								2) परशुराम श्यामराव पाचगे
88	88			सरकारी	कृषी (शुष्क)		433.50	सरकारी मुरुम कौरी
89	89			सरकार	कृषी (शुष्क)		312	सरकारी मुरुम कौरी
96	90			निजी	कृषी (शुष्क)		3246.10	1) अशोक विठ्ठलाचार्य जागिरदार
								2) अनिल अशोक जागिरदार
								3) अमय अशोक जागिरदार
124	124			सरकारी	कृषी (शुष्क)		330	सरकारी मुरुम कौरी
125	125/1			निजी	कृषी (शुष्क)		1848	1) चवप्पा शरणप्पा नंदरगी
गांव	गांव			सरकारी	गांवठाण		147	गांवठाण
								इच्छुक व्यक्ती
								1) नागण्णा सिध्दाविर पुजारी
								2) शिवान्न रेवप्पा पुजारी
								3) होनप्पा यशवंत पुजारी
								4) पुंडलिक मल्लप्पा भोसले
								5) भिमाशंकर दुर्गधन भोसले

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6) बलराम दुयोधन भोसले 7) परशुराम गंगाराम पाचगे 8) ललिता अशोक पाचगे 9) सिध्दाराम बुध्दिवंत पाचगे 10) रामचंद्रा अमोगी बजंतरी 11) मणीरथी अमोगी बजंतरी 12) महादेवी मलकारी लोमतोरी 13) सुनंदा लक्ष्मण दिक्षीत 14) हणमंत शिवप्पा कागार 15) समैसिंग नागप्पा कागार 16) स्वाराथ विभाग
			8) बल्लोल्ली	1	1	निजी कृषी (सिंचन)	1138.70	1) मुक्तारअहमद अब्दुलवाहिद दाखमी
				2	2	निजी कृषी (सिंचन)	544	1) श्रीरत्न विरप्पा श्रीशाड
				4	4	निजी कृषी (सिंचन)	544	1) दशरथ माटेप्पा तलवार 2) मल्लप्पा देवप्पा नायकोडी 3) काशीनाथ शरणप्पा जोषमाव 4) इरण्णा श्रीरत्न वाली 5) सिद्धाम मुरगेप्पा वाली 6) इरण्णा कल्लप्पा वडीगर 7) मल्लिकार्जुन शंकर सोमोनी 8) श्रीकांत कल्लुवाड कृष्णा भिसे 9) अरुणसिंग प्रतापसिंग टोकुर 10) के. एम. इलयराजा 11) मनोज विठ्ठल नागापुरे 12) श्रीरत्न विरप्पा श्रीशाड
				5	5	निजी कृषी (सिंचन)	198	1) एकनाथ कल्लप्पा भदंकर
				6	6/2	निजी कृषी (सिंचन)	360	1) एकनाथ कल्लप्पा भदंकर
				7	7/4	निजी कृषी (सिंचन) सरकारी कृषी (शुष्क)	252	1) शंकर जेठप्पा तलवार 2) कर्नाटका उद्योग क्षेत्र विकास मंडळ बेगलोर
						निजी कृषी (सिंचन)		3) अमरिंद जेठप्पा तलवार
				9	9	निजी कृषी (सिंचन)	424	1) परलप्पा सत्यप्पा कोळी 2) शेकव्या परगोड माळी 3) श्रीमत नल्लप्पा तुप्पड 4) शांताराम दशदेराज मेत्री 5) अर्जुन सत्यप्पा कोळी (वालीकर) 6) विमशा सत्यप्पा कोळी (वालीकर) 7) काशीदाई कृष्णा भिसे 8) सिध्दाराम मुरगेप्पा वाली 9) कर्नाटका उद्योग क्षेत्र विकास मंडळ बेगलोर
				12	12/1	निजी गैरकृषी	720	1) महादेवी संगप्पा बडीगर
					12/2	निजी कृषी (सिंचन)	1042	1) अण्णा रुद्रप्पा वडीगर
				13	13/2	निजी कृषी (सिंचन)	36	1) शिवाजी शंकर वडीगर
					13/3	निजी कृषी (सिंचन)	108	1) इरण्णा रुद्रप्पा वडीगर 2) अण्णा रुद्रप्पा वडीगर 3) मदीप्पा रुद्रप्पा वडीगर 4) मल्लप्पा रुद्रप्पा वडीगर 5) श्रीरत्न रुद्रप्पा वडीगर 6) शनिवेश रुद्रप्पा वडीगर
					13/4	निजी कृषी (सिंचन)	8-96	1) विरप्पा इरण्णा कांबली 2) मल्लप्पा दानप्पा वडीगर 3) इरण्णा श्रीरत्न वाली
				15/1	15/1	निजी गैरकृषी	215.70	1) सिद्धाम मुरगेप्पा वाली 2) विजया भिमराजकर वाली 3) रेखा मोहन देसाई 4) अशिलेश भिमराजकर वाली (मों/पा. विजया)
				18	18/3	निजी कृषी (सिंचन)	330	1) विठ्ठल निगप्पा बरुर 2) चंदकांत निगप्पा बरुर 3) महादेव विठ्ठल मुंदोडगी
				19	19	निजी कृषी (शुष्क)	480	1) श्रीमत भिमराज शिंदे (मों/पा. रुक्मिणीबाई)

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				20	20	सरकारी	गैरकृषी	1025	सरकारी मुकम कौरी
				45	45	निजी	कृषी (सिंचन)	814	1) ज्योत्यप्पा पदमण्णा सगाई 2) सिध्दप्पा सोमण्णा सगाई
				64	64 / 1	निजी	गैरकृषी	210	1) राजशेखर विरय्या गाचीमामठ
					64 / 2	निजी	गैरकृषी	580	1) अशोककुमार व्यंकटराव लिबावली
					64 / 3	निजी	कृषी (शुष्क)	7331.10	1) सेनासाब नबीलाल मुल्ला
				85	65	निजी	कृषी (शुष्क)	150	1) नबीलाल अब्दुल पिजर 2) हब्बू दस्तागिर पिजर 3) नबीलाल अब्दुल पिजर 4) अब्दुल सय्यद पिजर 5) विजेरा मौला पिजर 6) रुकमोददीन मौला पिजर 7) बिस्मील्ला बाशालाल पिजर 8) बलिमा काशीमसाब पिजर 9) हसनामा मौला पिजर
				66 / 1	86 / 1	निजी	कृषी (शुष्क)	525	1) नीता पुरणचंद्राव सोलापूर
				70	70 / 1	निजी	कृषी (शुष्क)	45	1) भिमण्णा कामण्णा मैत्री 2) सिध्दप्पा कामण्णा मैत्री 3) हणमत कामण्णा मैत्री
					70 / 2	निजी	गैरकृषी	164	1) रामवदसिंग बबनसिंग ठाकुर
				74	74	निजी	कृषी (सिंचन)	690	1) रामगौड परगौड वालीकर
				75	75 / 1	निजी	कृषी (सिंचन)	1180	1) प्रकाश अबण्णा कलबुर्गी
					75 / 2				
				62	82 / 2	निजी	कृषी (सिंचन)	275	1) तोपण्णा खोबण्णा तलवार
					82 / 3	निजी	कृषी (सिंचन)	180.10	1) इरप्पा खोबण्णा तलवार
				63	83	निजी	कृषी (सिंचन)	694.50	1) इरप्पा खोबण्णा तलवार
				84	84	निजी	कृषी (सिंचन)	2056	1) मंगला महादेव सगाई 2) विठोबा महादेव सगाई 3) बिरप्पा महादेव सगाई (मौ/पा. मंगला सगाई) 4) 1) मल्लक्का मल्लप्पा शिंदे 2) मुत्तक्का मल्लप्पा शिंदे 3) हवलक्का मल्लप्पा शिंदे 4) निलक्का मल्लप्पा शिंदे
				102	102 / 1	निजी	कृषी (सिंचन)	2125	1) गंगाबाई गुरण्णा मैत्री 2) विठ्ठल गुरण्णा मैत्री 3) महादेव गुरण्णा मैत्री 4) शितप्पा गुरण्णा मैत्री 5) सुनदा अन्नप्पा लातूर 6) हणमत गुरण्णा मैत्री
					102 / 2	निजी	कृषी (सिंचन)		1) अन्नप्पा रेवप्पा मैत्री
				103	103 / 1	निजी	कृषी (सिंचन)	1008.20	1) सैतानासाब अल्लासाब वालीकर 2) अड्डियप्पा श्रीमत मैत्री 3) नुरजान सैतानसाब वालीकर
					103 / 2	निजी	कृषी (सिंचन)		1) सोमशेखर सिध्दराय मलबागी
					103 / 3	निजी	कृषी (सिंचन)		1) श्रीमत सिदाम मैत्री
				252	252	सरकारी	गैरकृषी	720	1) आबकारी विभाग चौकी 2) पर्यटन विभाग 3) ग्राम लेखाधिकारी निवास 4) राष्ट्रीय महामार्ग 5) सरकारी मुकम कौरी
				253 / 1	253 / 1 अ	निजी	कृषी (सिंचन)	1297.59	1) रामण्णा लक्ष्मण मराठे 2) गुरुराज रेवणसिध्दप्पा वाली
					253 / 1 ब	निजी	कृषी (सिंचन)		1) अन्नप्पा लक्ष्मण मराठे
					253 / 1 क	निजी	कृषी (सिंचन)		1) हिराबाई अप्पण्णा मराठे 2) संभाजी अप्पण्णा मराठे
					253 / 1 ड	निजी	कृषी (सिंचन)		1) शिवाजी लक्ष्मण मराठे
					253 / 1 फ	निजी	कृषी (सिंचन)		1) तानाजी लक्ष्मण मराठे
				253 / 2	253 / 2 / 1	सरकारी	गैरकृषी	1128	1) सरकारी जमिन 2) अशोक मल्लिकार्जुन कल्याणी
				254 / 1 अ	254 / 1 अ	निजी	कृषी (शुष्क)	120	1) रिमता राघवेंद्रा गलगली 2) संगीत राघवेंद्रा गलगली



1	2	3	4	5	6	7	8	9
								5) अब्दुल इब्राहिम अलकी 6) रुकमोददीन राजेश मनियार 7) मैलसिंग लक्ष्मण शिंदे 8) महादेवी दोडीदाम बाबर 9) सैफनसाब हुसेनसाब अलकी 10) 1) सिदामय्या बसय्या हिरेमठ 2) लक्ष्मी सिध्दरामय्या हिरेमठ 11) मल्लेशी तुकण्णा बल्लीकटटी 12) शिलावत मल्लेशी बल्लीकटटी
				50/1	50/1 अ	निजी	कृषी (शुष्क)	566.69
				50/2	50/2 अ	निजी	कृषी (शुष्क)	99.99
					50/2 ब			
				51	51/1	निजी	कृषी (सिंचन)	2345
						सरकारी	कॅनाल	852
					51/3	निजी	कृषी (सिंचन)	1657
						सरकारी	कॅनाल	620
					51/4	निजी	कृषी (सिंचन)	1196
				52	52/1+1/अ	निजी	कृषी (सिंचन)	2366
					52/1+1/ब	निजी	कृषी (सिंचन)	
					52/1+1/क	निजी	कृषी (सिंचन)	
					52/1+2	निजी	कृषी (सिंचन)	
					52/1+3	निजी	कृषी (सिंचन)	
					52/2	निजी	कृषी (सिंचन)	
				55	55/2	निजी	कृषी (सिंचन)	1756
					55/2 ब	निजी	कृषी (सिंचन)	
					55/2 अ/1	निजी	कृषी (सिंचन)	
					55/2अ/2	निजी	कृषी (सिंचन)	
					55/2अ/2अ/1	निजी	कृषी (सिंचन)	
					55/2अ/2अ/2	निजी	गैरकृषी	
					55/2अ/2ब	निजी	कृषी (सिंचन)	
					55/ब	निजी	कृषी (शुष्क)	946
						सरकारी	कॅनाल	130
					नाला	सरकारी	कृषी (शुष्क)	52.51
				60/3	60/3	सरकारी	नाला	38.69
				60/4	60/4	सरकारी	नाला	13.82
				61/1	61/1 अ	निजी	कृषी (सिंचन)	36
					61/1 ब	निजी	कृषी (सिंचन)	
				61/2	61/2	निजी	कृषी (सिंचन)	
				62	62	निजी	कृषी (सिंचन)	40
				83	83/1 अ 1	निजी	कृषी (सिंचन)	81
					83/1 अ 2	निजी	कृषी (सिंचन)	
					83/1 ब+2	निजी	कृषी (सिंचन)	
					83/2 ब	निजी	कृषी (सिंचन)	
					83/1 क/2	निजी	कृषी (सिंचन)	
					83/1 क+ब	निजी	कृषी (सिंचन)	
								1) बाबुराव मंगीनी दलवाई 2) गुरुनाथ मंगीनी दलवाई 1) दरेप्पा शेषप्पा गलवे 2) सुरेश शेषप्पा गलवे 1) पुंडलिक इरप्पा दलवाई 2) गिरीमल्ला इरप्पा दलवाई 1) काशीनाथ भिमाशंकर कुभार 1) बिरप्पा चन्नप्पा नदुर 1) मल्लेशी चन्नप्पा नदुर 1) मल्लेशी चन्नप्पा नदुर 1) भिमण्णा शिवप्पा नदुर 1) पांडुरंग बसप्पा इजेरी 1) गौरव्वा तुकाराम वडार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				65	65 / 1 अ	निजी	कृषी (सिंचन)	526.68	1) विष्णु विनायक सावुकर
					65 / 1 ब	निजी	कृषी (सिंचन)		1) सुरेश विनायकराव सावुकार
					65 / 2 अ	निजी	कृषी (सिंचन)		1) सुरेश विनायकराव सावुकार
					65 / 2 ब	निजी	कृषी (सिंचन)		1) तुकाराम विनायकराव सावुकार
				66	66 / 1	निजी	कृषी (सिंचन)	3260.31	1) हाजीमलंग सुलेमान सावुकार
					66 / 2	निजी	कृषी (सिंचन)		1) विनायक सत्यप्पा भुताली
					66 / 3	निजी	कृषी (सिंचन)		1) विठ्ठल तोपण्णा लोदी
									2) रामचंद्रा तोपण्णा लोदी
									3) अण्णासाव तोपण्णा लोदी
									4) जिंदू दगुसिंग लोदी
				68	68	निजी	कृषी (सिंचन)	1693	1) महातेश सिध्दगौड पाटील
				69	69	निजी	कृषी (सिंचन)	1220	1) शकुंतलाबाई यमनण्ण मुकरीताल
				70	70 / 1	निजी	कृषी (सिंचन)	3350	1) अधिकार अभिलेख के अनुसार
									2) कलायती रामफिसन लोदी
									3) शंकर किसन लोदी
					70 / 2 अ	निजी	कृषी (सिंचन)		1) महातेश सिध्दगौड पाटील
					70 / 2 ब / अ	निजी	कृषी (सिंचन)		1) महातेश सिध्दगौड पाटील
					70 / 2 ब / ब	निजी	कृषी (सिंचन)		1) राजशेखर यमनण्णा मुकरीताल
				72	72 / 2 अ / 1	निजी	कृषी (शुष्क)	1778.87	1) सुयाबाई गुरुमाधवाचार्य जहागिरदार
				73	73	निजी	कृषी (सिंचन)	992	1) कल्लप्पा गुरप्पा मादर (सयुक्त परिवार सदस्य)
				74 / 1	74 / 1 अ	निजी	कृषी (सिंचन)	1497.74	1) चन्नप्पा सोमण्णा दलवाई
					74 / 1 ब	निजी	कृषी (सिंचन)		1) अमोगसिध्द भैरप्पा दलवाई
					74 / 1 क	निजी	कृषी (सिंचन)		1) अमोगसिध्द भैरप्पा दलवाई
									2) शिवशंकर भैरप्पा दलवाई
									3) काशीनाथ भैरप्पा दलवाई
				74 / 2	74 / 2	निजी	कृषी (सिंचन)	1080	1) गनजिनी भैरप्पा दलवाई
				75	75 / 1	निजी	कृषी (सिंचन)	1249.26	1) मुरलीधर पुंडलिक जहागिरदार
					75 / 2	निजी	कृषी (सिंचन)		1) विठ्ठल भिरप्पा सावुकार
									2) मुदगौड भिरप्पा सावुकार
				76	76	निजी	कृषी (सिंचन)	1453.62	1) मुरलीधर पुंडलिक जहागिरदार
				77	77 / 1 अ / 1	निजी	कृषी (शुष्क)	341.29	1) कमलाकर विष्णुपत दशावत मों / पा. निर्मला
					77 / 1 अ 1 / 2	निजी	कृषी (शुष्क)		1) विष्णुपत मों कावेरीबाई दशावत
					77 / 13 अ / 1 / 3अ	निजी	कृषी (शुष्क)		1) निर्मला विष्णुपत दशावत
									2) मल्लम्मा गुरुपाद तिगनीबिंदी
					77 / 13 अ / 1 / 3ब	निजी	कृषी (शुष्क)		3) विठ्ठल कल्लप्पा गुमादावी
					77 / 2 अ / 1	निजी	कृषी (शुष्क)		1) सुनिता दुडप्पा खानापुर
									1) सुनित सुभाष दसवत
									2) सुधीर सुभाष दसवत (पिताजी सुभाष)
					77 / 2 ब / 2	निजी	कृषी (शुष्क)		1) कैकावती सुभाष दसवत
					77 / 2	निजी	कृषी (शुष्क)		1) हणमंत चन्नप्पा दलवाई
				78	78 / 1	निजी	कृषी (सिंचन)	136.03	1) अमोगसिध्द करेप्पा करगने
					78 / 2	निजी	कृषी (सिंचन)		1) जकराय करेप्पा करगने
				82 / 1	82 / 1	निजी	कृषी (सिंचन)	3584	1) शिवलिंगप्पा गुरुलिंगप्पा शिनखेड
									2) हणमता गुरुलिंगप्पा शिनखेड
									3) बाबुराय गुरुलिंगप्पा शिनखेड
				84	84 / 1	निजी	कृषी (सिंचन)	4200	1) पदमावती व्यंकटेश मुजिमदार
									2) अक्षता व्यंकटेश (मों / पा. पदमावती)
					84 / 2	निजी	कृषी (सिंचन)		3) सुभदा गोविंद मुजिमदार
									1) सुधीर वसंतराव जहागिरदार
									2) सुहास वसंतराव जहागिरदार
				85	85 / 1	निजी	कृषी (सिंचन)	1399.21	1) महादेव सायबण्णा पुजारी
					85 / 2	निजी	कृषी (सिंचन)		1) सत्यप्पा सायबण्णा नदुर
9) हलगुणकी				106 / 1	106 / 1	सरकारी	नाला	197.03	नाला
				113	113 / 1	निजी	कृषी (सिंचन)	3063	1) बसप्पा ठकप्पा हेगडयाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				113/2 अ	निजी	कृषी (सिंचन)		1) गिरीजाबाई अण्णाप्पा हरीजन
				113/2 ब	निजी	कृषी (सिंचन)		1) राजेंद्रका भिमशा हरीजन
				115	115	निजी	कृषी (सिंचन)	1909 1) मदेप्पा शिवलिंगप्पा सुच्याल
				116	116/1/1	निजी	कृषी (सिंचन)	930 1) सदाशिव ठकप्पा हेगडयाल
					116/1/2	निजी	कृषी (सिंचन)	1) गंगाधर ठकप्पा हेगडयाल
					116/2	निजी	कृषी (सिंचन)	1) मदेप्पा शिवलिंगप्पा सुच्याल
					116/3	निजी	कृषी (सिंचन)	1) शंकरप्पा अप्पासाहेब पाटील
				117	117/अ	निजी	कृषी (सिंचन)	1305 1) बसप्पा ठकप्पा हेगडयाल
					117/ब	निजी	कृषी (सिंचन)	1) भिमराय ठकप्पा हेगडयाल
					117/क	निजी	कृषी (सिंचन)	1) सदाशिव ठकप्पा हेगडयाल
				118	118/1अ	निजी	कृषी (सिंचन)	1060 1) लायप्पा यल्लप्पा होलर
								2) मनोहर यल्लप्पा होलर
								3) भिमराय यल्लप्पा होलर
					118/2 अ	निजी	कृषी (सिंचन)	1) बसप्पा ठकप्पा हेगडयाल
					118/2/1	निजी	कृषी (सिंचन)	1) अण्णाप्पा भिमण्णा हरीजन (मों/पा. राजवका)
					118/2/2	निजी	कृषी (सिंचन)	1) रामप्पा हणमत्पा हरीजन
					118/3	निजी	कृषी (सिंचन)	1) सायव्वा हणमत्पा कदमा
				119	119	निजी	कृषी (सिंचन)	866.15 1) मन्याव्वा दरेप्पा काबळे
								2) निलाबाई जल्लप्पा वनगे
				120	120/1अ	निजी	कृषी (सिंचन)	2814.81 1) अण्णाप्पा भिमशा हरीजन (मों/पा. राजवका)
					120/1ब	निजी	कृषी (सिंचन)	1) रामप्पा हणमत्पा हरीजन
					120/2 पै 1	निजी	कृषी (सिंचन)	अधिकार अभिलेख के अनुसार
					120/2 पै 2	निजी	कृषी (सिंचन)	1) मदिबुवाली मंजुरहुजेनी सोपेगर
					120/2 पै 3	निजी	कृषी (सिंचन)	1) रामबाई भिमराय यधार (हरीजन)
				121/1	121/1	निजी	कृषी (सिंचन)	49 1) भिमराय शिवशंकर बिरादार
								2) धर्मराय शिवशंकर बिरादार
				121/2	121/2	निजी	गैरकृषी (वाणिज्य)	185 1) बसप्पा ठकप्पा हेगडयाल
				122	122/1	निजी	कृषी (सिंचन)	1167.56 1) गंगव्वा चिदानंद काबळे
								2) भिमव्वा बसप्पा वनरोडे
					122/2	निजी	कृषी (सिंचन)	3) सायव्वा हणमत्पा कदमा
								1) लायप्पा यल्लप्पा हरीजन
				123	123	सरकारी	कृषी (शुष्क)	1140.89 सरकारी मुरुम कदान
				124	124/1	निजी	कृषी (सिंचन)	2580 1) चंदण मारुती हरीजन
					124/2	निजी	कृषी (सिंचन)	1) राजू मारुती हल्ली
					124/3	निजी	कृषी (सिंचन)	2) श्रीशैल मारुती हल्ली
								1) पिठठल भिमशा हल्ली (संयुक्त परिवार सदस्य)
								2) तिपव्वा शरणप्पा हल्ली (संयुक्त)
				128	128	निजी	कृषी (सिंचन)	972.14 1) शिवानंद तुकाराम कुंभार
				129	129	निजी	कृषी (सिंचन)	990 1) परशुराम हणमत्पा कुंभार
				130	130	निजी	कृषी (सिंचन)	1000 1) शिवानंद हजप्पा कुंभार
				152	152	निजी	कृषी (सिंचन)	5 1) बसप्पा ठकप्पा हेगडयाल
								2) भिमशा ठकप्पा हेगडयाल
								3) सदाशिव ठकप्पा हेगडयाल
								4) गंगाधर ठकप्पा हेगडयाल
								8) 1) ताराबाई बसण्णा भुयार
								7) अप्पासाब बसण्णा भुयार
								8) कल्लप्पा बाबण्णा भुयार
								9) भारती राजशेखर यलगाड
10) सोनावनहल्ली				72अ	72अ	निजी	कृषी (शुष्क)	1367 1) सिद्धराय परसप्पा कोळी
								2) लक्कव्वा परसप्पा कोळी
								3) लक्ष्मीबाई परसप्पा कोळी
								4) शरणव्वा परसप्पा कोळी
						सरकारी	मार्ग	135 सरकारी मार्ग
						सरकारी	मार्ग	582.09 सरकारी मार्ग
				74	74	निजी	कृषी (शुष्क)	8 1) इरप्पा लक्कप्पा कोळी
				75	75	निजी	कृषी (शुष्क)	1125.64 1) भिमराय मुदीगाड बबलादी
								2) इंदिराबाई लक्ष्मण होलर (देगीनालकर)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				78	78/1	निजी	कृषी (सिंचन)	2937	1) विठोबा रामण्णा पुजारी
					78/1 X1	निजी	गैरकृषी		1) विठोबा रामण्णा पुजारी
					78/2	निजी	कृषी (शुष्क)		1) रामण्णा विठोबा पुजारी
				79	79/अ/1	निजी	कृषी (शुष्क)	182	1) अमिसिध्द एकराम पुजारी
					79/अ/2	निजी	कृषी (शुष्क)	616	1) हरुण सगरु खान
					79/अ/3	निजी	कृषी (शुष्क)	165	1) तुकराम एकराम पुजारी
					79/अ/4	निजी	कृषी (शुष्क)	92	1) रामण्णा परसण्या पुजारी
					79/अ/6	निजी	कृषी (शुष्क)	1125	1) रामण्णा परसण्या पुजारी
					79/अ/7	निजी	कृषी (शुष्क)	264	1) रामण्णा विठोबा पुजारी
				83	83	निजी	कृषी (शुष्क)	700	1) बाबुराव रंगा कुलकर्णी
									2) भार्गवी राजकुमार कुलकर्णी (मों/पा.)
				84	84/1अ	निजी	कृषी (शुष्क)	1913	1) विठोबा रामण्णा पुजारी
					84/1ब	निजी	कृषी (शुष्क)		अधिकार अभिलेख के अनुसार
					84/1क	निजी	कृषी (शुष्क)		1) आनंद रामण्णा पुजारी
					84/2	निजी	कृषी (शुष्क)		1) बलवंतप्पा रामण्णा पुजारी
					84/2ब	निजी	कृषी (शुष्क)		1) परसण्या रामण्णा पुजारी
				85	85	निजी	कृषी (शुष्क)	630	1) मलव्या श्रीमंत शिवशरण
									2) कल्लप्पा बसगौड हलगुणकी, (भुयार)
									3) अप्पासाहेब बसगौड हलगुणकी
									4) भारती राजशेखर यलगौड
									5) ताराबाई बसगौड हलगुणकी, (भुयार)
				86	86/1	निजी	कृषी (शुष्क)	150	1) यासिन महिबुलती सोपेगर (मों/पा.)
					86/2	निजी	कृषी (शुष्क)	290	1) मुर्तुज मजूरहुसेनी सोपेगर
				87	87/अ	निजी	कृषी (शुष्क)	1349.45	1) महमदहुरीन अब्दुल फौजदार
									2) शिवप्पा चंद्रम हरीजन
									3) मल्लव्या विठ्ठल कांबले
									4) जनाबाई नागप्पा सादुकर
									5) गुरुबाई बालप्पा कांबले
									6) शमीबाई परसण्या कांबले
									7) सुंदराबाई बसवनाथ नरेनवार
									8) रेवणसिध्द चंद्रम्मा हरीजन
									9) मुरुगंदय्या गुरुपादय्या हिरेमठ
									10) कल्लप्पा भिमण्णा हरीजन
									11) जयभिम यल्लप्पा हरीजन
									12) रेवणसिध्द यल्लप्पा हरीजन
									13) गोपाल अडिवप्पा हरीजन
									14) भिमप्पा अडिवप्पा हरीजन
									15) आनंद अडिवप्पा हरीजन
									16) हनुमान अडिवप्पा हरीजन
									17) रामाबाई रमेश कांबले
				90	90	निजी	कृषी (शुष्क)	150	1) जवकप्पा सिदाम पुजारी
				93	93/1अ	निजी	कृषी (शुष्क)	1994	1) काशीराम सिदाम पुजारी
					93/1ब	निजी	कृषी (शुष्क)		2) प्रकाश बसप्पा हेगडय्याल
				67	67/1	निजी	कृषी (शुष्क)	1400	1) शिवगौड सिदाम पुजारी
									अधिकार अभिलेख के अनुसार
				68	68/1क/2पे (1)	निजी	गैरकृषी	50	1) सुरेश असलाचंदजी संकलेचा (जैन)
					68/1क/2पे 29	निजी	गैरकृषी	44	1) सुरेश असलाचंदजी संकलेचा (जैन)
						सरकारी	मार्ग	100	सरकारी मार्ग
						सरकारी	मार्ग	640	सेवा मार्ग
					68/1क/1 पे प. न. 1	निजी	गैरकृषी	50	1) मनिष बाबुलाल मेहता
						सरकारी	मार्ग	40	सेवा मार्ग
						सरकारी	मार्ग	480	सेवा मार्ग
					68/1अ/1 पे न. 24	निजी	गैरकृषी	50	1) अब्दुल रजाफ हुसना गदावाल
					68/1अ/1 पे न. 53	निजी	गैरकृषी	32	1) अब्दुल रजाफ हुसना गदावाल
						सरकारी	मार्ग	32	सेवा मार्ग

11) महल बागायत



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					सरकारी	मार्ग	896	सेवा मार्ग	
				66/1अ/2	निजी	गैरकृषी	144	अधिकार अभिलेख के अनुसार	
					निजी	मार्ग	822.87	सेवा मार्ग	
				69	69/3 अ	निजी	कृषी (शुष्क)	540	1) मजुनाथ प्रभु अलगाँव
					69/3 ब	निजी	कृषी (शुष्क)	240	1) नरसिंग गोविंद जाधव
					69/3 क	निजी	कृषी (शुष्क)	180	1) विश्वनाथ मल्लिकार्जुन अलुर
					69/4	निजी	कृषी (शुष्क)	364.8	1) गुरुबसप्पा शिवानंदप्पा रुदगी
				102	102/2	निजी	कृषी (शुष्क)	675.67	1) काशीबाई अंबाजी अंजीखाने 2) अशोक अंबाजी अंजीखाने 3) दत्तु अंबाजी अंजीखाने 4) कृष्णा अंबाजी अंजीखाने 5) तुलजाबाई राजु अंजीखाने 6) विठ्ठल अंबाजी अंजीखाने 7) गीता सदाशिव अंजीखाने 8) शंकर अंबाजी अंजीखाने 9) नगर परिषद, बिजापूर
				103	103 1 ब+2/1 (मार्ग)	सरकारी	मार्ग	613	सेवा मार्ग
					103/2 अ	सरकारी	गैरकृषी	635	सेवा मार्ग
				117/2	117/2	निजी	कृषी (शुष्क)	580	1) मारुती विठोबा अंजीखाने 2) साईनाथ मारुती अंजीखाने 3) कृष्णा मारुती अंजीखाने 4) छाया मारुती अंजीखाने
				118	116	निजी	कृषी (शुष्क)	4073	1) भिमण्णा रामण्णा उप्पर 2) अर्जुन रामण्णा उप्पर 3) सुभाष रामण्णा उप्पर 4) शिवाजी रामण्णा उप्पर 5) जनाबाई महादेवप्पा उप्पर 6) सुवर्णा महादेवप्पा उप्पर 7) मंजुला महादेवप्पा उप्पर 8) धानप्पा महादेवप्पा उप्पर
				130/1	130/1अ	निजी	कृषी (शुष्क)	400	1) गौतमचंद उमेदमल जैन
					130/1ब	निजी	कृषी (शुष्क)	402	1) कृष्णाजी सिद्धबा खादे
				130/3	130/3	निजी	कृषी (शुष्क)	272	1) अरुण अप्पाराहेव नाहगौडा
				130/5	130/5	निजी	कृषी (शुष्क)	140.86	1) वंदना श्यामसुंदर तोष्णीवाल
				130/6	130/6 अ	निजी	कृषी (शुष्क)	336.56	1) महादेव रावप्पा माळी (भालगर)
				133/1	133/1	निजी	कृषी (शुष्क)	374	1) चंदेभाग विठ्ठल गदागमवली 2) यशवंत विठ्ठल गदागमवली 3) निताजी विठ्ठल गदागमवली 4) दत्ता विठ्ठल गदागमवली
						सरकारी	मार्ग	87.27	इडी रोड एरिया
				134	134/2 ब	निजी	कृषी (शुष्क)	102	1) नविरतुल अमिनसाब गागदापुर
					134/2 क	निजी	कृषी (शुष्क)	52	1) सलिम अब्दुलरजाक दर्गा
					134/2 ड	निजी	कृषी (शुष्क)	46	1) अरविंद रुद्रप्पा उकासी
					134/2 इ	निजी	कृषी (शुष्क)	34	1) अब्दुलसुभान महमूदसाब हलुर 2) राजअहमद महमूदसाब हलुर
					134/1क/1	निजी	गैरकृषी	299.07	1) अंजली अशोक उप्पीन
				145	145	निजी	कृषी (शुष्क)	1815	1) शाहीलाल नेमचंद नहार 2) सिलाबाई मंगनलाल नहार 3) मोहनलाल मंगनलाल नहार 4) रतीलाल मंगनलाल नहार 5) रमेशचंद मंगनलाल नहार 6) किशोरचंद मंगनलाल नहार 7) सुरेखा महेंद्रकुमार शाह 8) सरोजा गौतमलाल सोखे 9) चंचलबाई बालचंद नहार
				148	148/1 148/2	सरकारी	मार्ग	366	सरकारी मार्ग
				149	149/1 अ/1 149/1 अ/2	निजी	गैरकृषी कृषी (शुष्क)	100 357	1) गिराकुमार हिंदमन सोखले 1) शमशेरचंदन सुनेलाल गजपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				149 / 1 अ / 3	निजी	गैरकृषी	490	1) विराडकुमार हिराचंद पोरवाल
		219		219 अ	निजी	कृषी (शुष्क)	66	1) विकास शिवप्पा मंगलवाडे 2) विलास शिवप्पा मंगलवाडे 3) विनोद शिवप्पा मंगलवाडे 4) शिवलिंगप्पा बसप्पा मंगलवाडे 5) जगदीश 6) राजेशखर शिवलिंगप्पा मंगलवाडे 7) शातावीर 8) विजयकुमार 9) विनोद 10) विकास
		223		223 / 1	निजी	कृषी (शुष्क)	1472	1) एस.एम.आनंद
				223 / 2	निजी	गैरकृषी	1255	1) मल्लिकार्जुन सिध्दप्पा कदापती
		225		225 / अ	निजी	कृषी (शुष्क)	1567	सी.एम.सी. बिजापुर मशन वाठ
				225 / ब 1	निजी	कृषी (शुष्क)		1) जमिरअहमद अब्दुलहमिद बागी
				225 / ब 2	निजी	कृषी (शुष्क)		1) सिध्दप्पा गुलप्पा शेटगर 2) अप्पण्णा गुलप्पा शेटगर 3) राजभेखर गुलप्पा शेटगर 4) महादेवप्पा गुलप्पा शेटगर (मों / पा. गंगाबाई)
		226		226 / 1 अ	निजी	कृषी (शुष्क)	728	अधिकार अभिलेख के अनुसार
				226 / 1 क	निजी	कृषी (शुष्क)	403.70	1) गुरुपादप्पा परसप्पा लोगनवी 2) हणपत गुरुपादप्पा लोगनवी
		227		227	निजी	कृषी (शुष्क)	1678.40	1) सुभाबाई बालकृष्णा कलमाडी
		234		234 / 1 अ / 1	निजी	कृषी (शुष्क)	85	1) रविकुमार मुरलीधर दरबार 2) उदयकुमार मुरलीधर दरबार 3) मनोजकुमार मुरलीधर दरबार 4) राजप्पणा अनिलकुमार देसाई 5) किशोरी राजेश पारीक
				234 / 1 अ / 2	निजी	गैरकृषी	245	1) गणपती चकलु जाधव 2) केशू चकलु जाधव
				234 / 1 ब	निजी	गैरकृषी	300	1) देवप्पा छिदानंद साळी 2) गणपती चकलु जाधव 3) रमेश नानु लगणी 4) हमजाहुसेन मदारसाब कनुर 5) धानप्पा केशू राठोड 6) मिमण्णा कालप्पा कटटीमनी 7) शरणवसप्पा कालप्पा कटटीमनी 8) सिध्दारुड गुरुपादप्पा शहापुर
		239		239 अ	निजी	कृषी (शुष्क)	2719	1) सुनिता मल्लिनाथ कुचनुर 2) राकेश बन्नीलाल दरबार
		240		240 अ	निजी	गैरकृषी	140	1) बसवराज सिध्दनगोड पाटील 2) सुनिता मल्लिनाथ कुचनुर
				240 / 2	निजी	गैरकृषी	135	1) अजितकुमार बलसाहेब कुचनुर 2) किर्ती अमृतलाल बाहेते 3) आरती अमृतलाल बाहेते 4) अविनाश अमृतलाल बाहेते
		242		242 / 1	निजी	कृषी (सिंचन)	1958	1) किशोरकुमार हारकादास दरबार
				242 / 2	निजी	कृषी (शुष्क)	380	1) अधिकारी राजेश दरबार, ऑन विहाफ ऑफ चैअरमन हारकादास विठ्ठलदास दरबार मेमोरियल ट्रस्ट विजापुर
		1037		1037 अ	निजी	कृषी (शुष्क)	20	1) मधुकान्ना लक्ष्मीदास दरबार
		1038 / 1 और 2		1038 / 2	निजी	कृषी (शुष्क)	818.36	1) ह्यामलत्ता शिवप्पा गिददनजार
		1038 / 3		1038 / 3	निजी	कृषी (शुष्क)	195	1) बाबु लक्ष्मण जाधव

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				1038 / 3 व 2	1038 / 3 व 2	निजी	कृषी (शुष्क)	189	1) जहेदा हमदहसेन कन्नुर
				1046	1046 / X 1	सरकारी	कृषी (शुष्क)	2128	2) अवण्णा मुस्तप्पा करजोशी
					1046 / X 2				उपमुख्य अभियंता रेल्वे गेज कनकजीन
					1046 / X 3				कर्नाटक उद्योग क्षेत्र विकास महामंडळ, बेंगलोर (वरिष्ठ विभागीय व्यवस्थापक, इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन मर्या. बेलगाम)
				1047	1047 / 2	सरकारी	गैरकृषी	108	1) रानाजी अम्बाजी गवळी
				गाव	गाव	सरकारी	गावठाण	2768	2) गिरजप्पा अम्बाजी गवळी
		12) हनघिनाल		97	97 / 3 / 2 क	निजी	कृषी (शुष्क)	32 02	3) सोनप्पा अम्बाजी गवळी
				99 / अ	99 / 1	सरकारी	कृषी (शुष्क)	3080	कर्नाटक उद्योग क्षेत्र विकास महामंडळ, बेंगलोर
					99 / 2	निजी	कृषी (शुष्क)	771	गावठाण
				102	102	निजी	कृषी (शुष्क)	2109.25	1) अब्दुलरजाक अहमदखादी हुडेकर
									होसिंग बोर्ड नकाशा मार्ग क्षेत्र
									1) अण्णाप्पा गुरप्पा गवळी
									2) शंकर गुरप्पा गवळी
									3) सुभाष गुरप्पा गवळी
									4) सुरेश गुरप्पा गवळी
									1) सुगलबाई नरसिंग पंगुडवाले (गवळी)
									2) उमेश नरसिंग पंगुडवाले (गवळी)
									3) गोविंद नरसिंग पंगुडवाले (गवळी)
									4) प्रभु नरसिंग पंगुडवाले (गवळी)
									5) राजु नरसिंग पंगुडवाले (गवळी)
									6) अजनाबाई नंदु नाईक
									7) मंजुला रकमाजिजान गवळी
									8) महादेवी रामु तलपेटे
									9) महानंदा नरसिंग पंगुडवाले (गवळी)
									10) सुभाष नागनाथ गवळी
									11) सत्यप्पा धुधु गवळी
				105	105 / 1 अ	निजी	गैरकृषी	578	1) पदमु हिरु चव्हाण
					105 / 1 ब	निजी	कृषी (शुष्क)	525	1) सिध्दप्पा निगप्पा बोलेगाव
					105 / 1 क	निजी	कृषी (शुष्क)	2025	1) गुरुपादप्पा महादेवप्पा कट्टी
									2) शिवानंद महादेवप्पा कट्टी

[फा. सं. भाराराप्रा/पीआईयू/एसएलपी/एनए/15012/10]  
माया प्रकाश, उ० सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th December, 2012

**S.O. 2859(E).** – Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 2757 (E), dated 08<sup>th</sup> December 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning etc), maintenance, management and operation of National Highway No. 13 on the stretch of land from Km 30.340 to Km 102.000 (Solapur - Bijapur Section) in Bijapur District in the State of Karnataka;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Times of India (Bangalore version)" and "Vijay Karnataka (Hubli version)" both dated 22<sup>nd</sup> January 2012 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas, objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section(1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km. 30.340 to km-102.000 (Solapur-Bijapur Section) of the National Highways Nn. 13 in Karnataka State.

Serial Number	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Survey numbers		Type of land	Nature of land	Area in Sqaure meters	Name of the Land Owner/Interested Persons
				As notified in	As per JMC & ROR				
				3 (A)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Bijapur	1) Indi	1) Dhulikhed	8/1	8/1	Private	Agricuture (Irrigated)	848	1) Subhasha Ramachandra kulakarni
				8/2	8/2	Private	Agricuture (Irrigated)	967.74	1) Hanamantray Jetteppa Nelture
				9	9 Plot. No.1	Private	Agricuture (Irrigated)	1127	1)Kusappashiva Rudrappa Kurabar 2)Shivarudra Kushappa Kurabar 3) KBJNL Bangalore 4)Kashibai W/o. Amasidda Kurabar 5)Ratikant Amasidda Kurabar M/G Mother Kashibai 6)Bhimanna S/o. Amasidda Kurabar M/G Mother Kashibai 7) Joti D/o. Amasidda Kurabar M/G Mother Kashibai
				10	10/1A	Private	Agricuture (Irrigated)	228	1)Parwati W/o. Tammaaray Bhairagond 2)Neelakant S/o. Tammaaray Bhairagond 3)Shrishail S/o. Tammaaray Bhairagond 4) Rajkumar S/o. Tammaaray Bhairagond M/G Mother Parwati
				10/1B	Private	Agricuture (Dry)	72	1)Rewappa S/o. Shiddappa Bhairagond	
				11	11/1	Private	Agricuture (Dry)	195	1)Shivapurra S/o. Ningappa Navi
				11/2	Private	Agricuture (Dry)		2) Kashinath S/o. Kaliappa Navi	
				11/3	Private	Agricuture (Dry)		3) Bhimashankar Mahadev Walikar	
				12	12/1	Govt	Agricuture (Dry)	375	1)Taluka Samaj Kalyan Ilakhe Indi 2)Chairman Taluka Panchayat Committee
				12/2	Gnvt	Agricuture (Dry)		3) Chairman, Dhulakhed Back word Class Housing Society	
				13	13/1	Private	Agricuture (Dry)	1284	1) Vittal Laxrnan Patil
				13/2	Private	Agricuture (Dry)		1)Ramakrishan Tippanna Patil 2)Rajendra 3)Sharanappa	
				13/3	Private	Agricuture (Dry)		1)Sarojini Anandray Patil 2)Santosh S/o Anand Patil 3)Triveni Laxamikant Walikar 4)Sushant S/o. Anandaray Patil 5) Shivanand S/o. Annaray Patil 6)Wishwanath S/o. Anandray Patil	
				13/4A	Private	Agricuture (Dry)		1)Shankar Narayana Bhatta Joshi	
				13/4B	Private	Agricuture (Dry)		1)Shrinivasa Narayanbhatta Joshi	
				13/4C	Private	Agricuture (Dry)		1)Shrikanth Pandurang Joshi	
				13/4D	Private	Agricuture (Dry)		1)Narayan Sheshabhaut Joshi	
				13	Govt.	Agricuture (Dry)		1) Chairman,Dhulakhed Back word Housing Society.	
				14	14/1A	Private	Agricuture (Irrigated)	100	1) Padarnavati W/o. Bhimarao Kulkarni

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								2)Prakash S/o. Bhimarao Kulakarni 3)Mukund S/o. Bhimarao Kulakarni 4) Sudindra Bhimarao Kulakarni 5)Rupa W/o. Shrirang Kulkarni	
				14/2A	Private	Agriculture (Irrigated)	405	1) Mahadev Nagappa Kambar	
				14/2B	Private	Agriculture (Irrigated)		1) Shrimant Nagappa Kambar	
				14/3	Private	Agriculture (Irrigated)	343.89	1) Veevekanand S/o. Tippanna Patil	
				15/2	15/2	Private	Agriculture (Dry)	1008	1)Vithal Ramachandra Bhairagond
				15/5	15/5	Private	Agriculture (Dry)	840	1) Siddaram S/o. Shivanna Bagali 2) Basawaraj Shivanna Bagali
				15/6	15/6A	Private	Agriculture (Dry)	1464	1)Rama D/o. Shrimantha Kodate M/G Mother Mahadevi 2)Manjunath 3) Lalita 4)Bharati 5) Ashok S/o. Shrimant Kodate M/G Mother Mahadevi
					Govt	Road	91.83	Govt Road	
				16/3	16/3	Private	Agriculture (Irrigated)	198	1)Bajirao Bhimarao Bandagar 2)K. B. J. N. L. Bangalore
				19	19	Govt.	Agriculture (Dry)	102	P.W.D Murum Quarry
				20/1	20/1	Private	Agriculture (Irrigated)	280	1) Kashinatha S/o. Shankar Kambar
				20/2	20/2	Govt.	Road	100	P.W.D Road
				20/5	20/5	Private	Agriculture (Irrigated)	198	1) Shivaputra S/o. Nagappa Kodate
				20/6	20/6	Private	Agriculture (Irrigated)	264	1) Nagappa Bhimanna Kodate
				22	22/P1	Private	Agriculture (Irrigated)	1815.16	1) Narayan Shubhash Kulkarni
				92	92	Private	Agriculture (Irrigated)	8916.14	1)Basvaraj Shivanna Kure 2)Hanamantray Shivanna Kure 3) Sushilabai W/o. Shrishail Umaraji
				93	93/1	Private	Agriculture (Irrigated)	2175.94	1) Rudrappa S/o. Maruti Ahirawadagi
					93/2	Private	Agriculture (Irrigated)		1) Dhareppa S/o. Maruti Ahirawadagi
					93/3	Private	Agriculture (Irrigated)		1) Mahadev S/o. Maruti Ahirawadagi
					93/4	Private	Agriculture (Irrigated)		1) Basappa S/o. Maruti Ahirawadagi
				94	94/1A	Private	Agriculture (Irrigated)	1480	1)Panduranga S/o. Narayan Joshi 2)Shiddappa Vamanappa Hirekurubar 1)Kantavva W/o. Mohan Hirekurubar 2)Hanamant S/o. Mohan Hirekurubar 3) Shankar S/o. Mohan Hirekurubar 4)Shenkreyya D/o. Mohan Hirekurubar
					94/1B	Private	Agriculture (Irrigated)		1)Bhutali Ramachandra Pujari
					94/2A	Private	Agriculture (Irrigated)		1)Sheranappa Ramachandra Pujari
					94/2B	Private	Agriculture (Irrigated)		2) Siddappa Vamanappa Hirekurubar
					94/3A	Private	Agriculture (Irrigated)	480	1) Madev S/o. Nagappa Naukar
					94/3B	Private	Agriculture (Irrigated)		1) Chandrakant S/o. Nagappa Naukar
				96	96	Govt	Agriculture (Dry)	66	P.W.D (Murum Quarry)

1	2	3	4	5		6		8	9
				97	97/1	Private	Agriculture (Dry)	810	1) Shankar S/o. Mahadev Kodate
					97/2	Private	Agriculture (Dry)		1)Rajashekar S/o. Kallappa Kodate 2) Hanamant S/o. Kallappa Kodate 3) Gayatri W/o. Prakash Kodate 4) Vithabai W/o. Kallappa Kodate
				98	98	Private	Agriculture (Dry)	840	1) Vijayalaxmi Shivanand Nashi
				99	99	Private	Non Agriculture (Commercial)	924	1) Vijayalaxmi Shivanand Nashi
				100	100	Private	Agriculture (Irrigated)	1092	1) Kalmeshi Hanamantaray Kolkar
				101	101	Private	Agriculture (Dry)	1080.76	1) Saraswati W/o. Sadashiv Kodate 2) Anasabai W/o. Ramgond. Ragate 3) Sulochana W/o. Baburay. Kodahoni 4) Shivanand S/o. Sadashiv. Kodate 5) Pravanand. S/o. Sadashiv. Kodate 6) Indubai. W/o. Dhareppa. Kattimani 7) Siddaram. S/o. Dhareppa. Kattimani 8) Nijaguni 9) Vithoba 10) Arjun 11) Jagannath S/o. Ramchandra Kodate 12) Nagappa S/o. Ramchandra Kodate 13) Manjunath S/o. Shrimanth Kodate 14) Lalita 15) Bharati D/o. Shrimanth. Kodate 9 to 13 M/G. Mother Mahadevi 16) Shankar S/o. Ramachandra Kodate 17) Rama S/o. Shrikant Kodate 18) Ashok S/o. Ramachandra Kodate M/G. Mother Mahadevi 19) Chandrabaga W/o. Umaesh Dhulakhed 20) Rohini W/o. Chandrakant Kattimani 21) Bhimashankar S/o. Umesh. Dhulakhed 22) Maheshavar. S/o. Umesh. Dhulakhed 23) Rajeshwar. S/o. Umesh. Dhulakhed 24) Shantabai. D/o. Shavarui. Kodate 25) Renuka. W/o. Shivaling. Gouli
				109	109	Private	Agriculture (Dry)	2266.56	1) Tukaram Channappa Ahirwadagi
				110	110/2	Private	Agriculture (Dry)	3262.42	1) Shailaja Shivanand Patil
				111	111/1	Private	Agriculture (Dry)	3510	1)Suryakanta Rewappa Baradol 2) Rupala Kalu Rathod 1)Dundappa Arun S/o Pandita Ankola.
					111/2	Private	Agriculture (Dry)		
				112	112/5	Private	Agriculture (Dry)	1626	1)Shivshankar S/o. Ninganna Bhairagond 2) Parameshwar S/o. Ninganna Bhairagond
					112/6	Private	Agriculture (Dry)		1)Ravikumar Paddu Chawan
				132	132/1	Private	Agriculture (Dry)	2354.61	1)Sanganna Bhimaray Ikkalaki 2)Laxman Bhimaray Ikkalaki 1) Ninganna S/o. Bhimaray Ikkalaki
					132/2	Private	Agriculture (Dry)		
				133/1A	133/1A	Private	Agriculture (Irrigated)	1060.91	1)Revappa Siddappa Bhairagond

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				133/1B	133/1B	Private	Agriculture (Irrigated)	1081	1) Bhimashankar Revappa Bhairagond 2) Assistant Commissioner Commercial Tax Dept Bijapur (Sale Tax investigation Thana Dhulakhed)
				133/2	133/2	Private	Agriculture (Irrigated)	2069	1) Sadashiv Parasappa Bhairagond 2) Assistant Commissioner Commercial Tax Dept Bijapur
				139	139/3	Private	Agriculture (Dry)	25	1) Shrishail Revanasiddappa Wali (OS. No. 278/2006 Pending in Principal Civil Judge Indi)
				144	144/1	Private	Agriculture (Dry)	1356	1) As per RTC
					144/2	Private	Agriculture (Dry)		2) Basvaraj S/o. Hanamantappa Kougi
					144/3	Private	Agriculture (Dry)		3) Chandrakant S/o. Shivanna Talawar
				151	151	Govt	Agriculture (Dry)	8	P.W.D Muram Quarry
				155/2B	155/2B	Private	Agriculture (Dry)	1035	1) Shrikantha Shivaray Pujari
				190	190/1	Private	Agriculture (Irrigated)	132	1) Rudrappa S/o. Maruti Ahirawadagi
					190/2	Private	Agriculture (Irrigated)		1) Dhareppa S/o. Maruti Ahirawadagi
					190/3	Private	Agriculture (Irrigated)		1) Mahadev S/o. Maruti Ahirawadagi
					190/4	Private	Agriculture (Irrigated)		1) Basappa S/o. Maruti Ahirawadagi
				191	191	Govt.	Agriculture (Dry)	74	P.W.D Muram Quarry
				192	192/1	Private	Agriculture (Dry)	1090	1) Shankar S/o. Chanagond Nagare
					192/2	Private	Agriculture (Dry)		1) Bhimashankar S/o. Chanagond Nagare
				193	193	Govt	Agriculture (Dry)	53	P.W.D Muram Quarry
				228/6	228/6	Private	Agriculture (Irrigated)	120	1) Ganapati S/o. Laxman Patil 2) K.B.J.N.I. Hangalore
				228/7	228/7A	Private	Agriculture (Irrigated)	61	1) Shivayogi S/o. Mahadev Nagare
					228/7B	Private	Agriculture (Irrigated)	60	1) Bhinasa S/o. Janappa Nagare
				228/8A	228/8A	Private	Agriculture (Irrigated)	30	1) Subhasha S/o. Yalagond Harijan
				228/9	228/9	Private	Agriculture (Irrigated)	575	1) Shrisail S/o. Chandanna Biradar
				265	265/1A	Private	Agriculture (Irrigated)	3020	1) Gangadhar Ramachandra Biradar
					265/1B	Private	Agriculture (Irrigated)	1550	1) Shankreppa S/o. Laxman Biradar
					265/1C	Private	Agriculture (Irrigated)	1394	1) Shrisail S/o. Chandanna Biradar
					265/1D	Private	Agriculture (Irrigated)	630	1) Suresh S/o. Chandanna Biradar
					265/2	Private	Agriculture (Irrigated)	550	1) Laxman Balayam Patil 2) Channappa S/o. Balayam Patil 3) Subhashchandra S/o. Balayam Patil 4) Suryakant S/o. Balayam Patil 5) Kustinavali W/o. Ramachandra Keshi
				287/4	287/4	Private	Agriculture	30	1) Subnadra W/o. Ishwar Biradar 2) Kallappa Ishwar Biradar 3) Dhareppa Ishwar Biradar 4) Kallabai D/o. Subanna Biradar



1	2	3	4	5	6	8	9		
							5) Devakka D/o. Satyanna Biradar		
							6) Ambadas S/o. Satyanna Biradar		
							7) Anjali D/o. Satyanna Biradar		
							8) Mallikarjun S/o. Ishwar Biradar		
				287/6	287/6	Govt	Agiculture (Irrigated)	546.50	Govt. land
			2) Halasangi	350/1	350/1	Private	Agiculture (Dry)	1666.37	1) Shrisail Basappa Maddi
				351	351	Private	Agiculture (Dry)	460	1) Suresh Annappa Loni
				352	352	Private	Agiculture (Dry)	129	1) Suresha Annappa Loni
						Govt	Road	154	Govt. Road
				353/A	353/A	Private	Agiculture (Dry)	40	1) Shiddaram Rewappa Tolanur
				354	354/1	Private	Agiculture (Dry)	900	1) Arjun Veethoba kattimani
					354/4			2088	1) Ganapati Ramakrishna Pattar, M/G Uncle Shidram 2) Sadashiv Shankappa Kanchagar 3) Rudrappa Ganapati Pattar 4) Vasanta Sidrami Pattar
				355/1	355/1A	Private	Agiculture (Dry)	1170	1) Ningappa Shidram Tatti
					355/1B				1) Mahendra Kumar Rangarao Kamble 2) Prashant S/o Rangarao Kamble
				356	356	Private	Agiculture (Dry)	2046	1) Suresh Annappa Loni
				376	376	Private	Agiculture (Dry)	90	1) Shivalingayya, 2) Mruttunjay S/o Shrisailayya Mathapati,
						Govt.	Road	180.74	Govt. Road
				377	377/1	Private	Agiculture (Dry)	4669	1) Suryakant Vitthoba Kattimani
				378/A	378/A	Private	Agiculture (Dry)	80	1) Manageeni Laxman Latawar
				381	381/1	Private	Agiculture (Dry)	100	1) Rajshekar Annappa Madhabhavi
					381/2				2) Gundappa Annappa Madhabhavi
					381/3				3) Neelappa Annappa Madhabhavi
					381/4				4) Jagadev Annappa Madhabhavi
				382 A	382 A1	Private	Agiculture (Dry)	4212	1) Gangappa Shivalingappa Bhuyyar
					382 A2	Private	Agiculture (Dry)	1092	1) Hanamantray Shiwanna Kure
				382/B	382/B	Govt	Agiculture (Dry)	464.78	PWD Murum Quarry
			3) Yelgi	4	4	Private	Agiculture (Irrigated)	567.10	1) Shrimantayya Gurubasayya Matha
				5	5	Private	Agiculture (Irrigated)	1455	1) Ningayya Irayya Matha 2) Shivanand Mallayya Matha 3) Shrishaila Mallayya Matha
				6	6	Private	Agiculture	2077.80	1) Dyamanna Gundappa Talawar 2) Maddappa Gundappa Talawar 3) Shrinanta Gundappa Talawar 4) Shiddappa Dyamanna Talawar 5) Ramappa Howanna Talawar
				7	7	Govt.	Agiculture (Dry)	490	Govt. Murum Quarry
				8	8	Private	Agiculture (Irrigated)	2000	1) Annayya Sharanayya Matha
				9	9	Private	Agiculture (Irrigated)	1728	1) Irayya Nurandayya Matha 2) Basayya Nurandayya Matha
				10	10	Private	Agiculture (Irrigated)	853.50	1) Buddayya Channabasayya Matha
				11	11/A	Private	Agiculture (Irrigated)	2287	1) Bandayya Sharanayya Matha

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				11/B	Private	Agriculture (Irrigated)		1)Shivayya Dewayya Matha
				12	12/1	Private	1222.50	1)Papameeya Sayadameeya Peerajade
					12/2	Private		1)Khajameeya Sayadameeya Peerajade
				13	13/1A	Private	450	Khajameeya Sayadameeya Peerajade
					13/1B	Private		1)Irayya Ningayya Matha
					13/2	Private		2)Shrishail Mallayya Matha
								3)Shivanand Mallayya Matha
								1)Shanwaja Sayadameeya Peerajade
				51	51	Private	2833.30	1)Bhagawantaray Maddeppa Biradar
				53	53/1A	Private	310	1)Ramesh Kallappa Yalameli
					53/1B	Private		1)Prakash Mallappa Yalameli
					53/1C	Private		2)Drakshayani Mallappa Yalameli, M/G Mother Mahadevi Mallappa Yalameli
					53/2	Private		1)Kallappa Irappa Yalameli
								1)Gourabai Irappa Yalameli
				54	54	Private	57	1)Madappa Kallappa Biradar
				80	80/2	Private	484.3	1)Bhimaray Irappa Yalameli
					80/3	Private		1)Kallappa Irappa Yalameli
					80/4	Private		1)Madevi Mallappa Yalameli
								2)Prakash S/o. Mallappa Yalameli M/G Mother Mahadevi
								3)Draksayani D/o. Mallappa Yalameli
				81	81	Govt.	873	Govt. Murum Quarry
				82	82	Private	1417.8	1)Neelakanta Shantappa Gurawa
				83	83	Govt.	548.6	Govt. Murum Quarry
				84	84	Private	1390	1)Neelakanta Shantappa Gurawa
				85	85	Private	210	1)Irappa Maddeppa Tamha
				86	86	Govt.	416.6	Govt. Murum Quarry
				87	87/1	Private	3723.1	1)Somanna Laxmanna Talawar
					87/2	Private		1)Laxmibai Ningappa Talawar
								2)Ambanna W/o. Jatteppa Talawar
								3)Shivaputra M/G Father Layappa
								4)Manjula D/o. Ningappa Talawar
								5)Anjali D/o. Ningappa Talawar
								6)Yogesh S/o. Ningappa Talawar
								7)Gouresh S/o. Ningappa Talawar, Sl/ No. 4 to 5 M/G Mother Laxmibai
					87/3	Private		1)Gurappa Laxman Talawar
				88	88/1	Private	243	1)Neelakantha Shantappa Gurawa
								2)Bhimanna Shantappa Gurawa
								3)Ashok Shantappa Gurawa
								4)Malikarjun Shantappa Gurawa
								5)Shrishail Shantappa Gurawa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			4) Arajanai	90	90/1	Private	Agriculture (Dry)	1054.80	1)Marularadde Shidram Patil
				91	91/1	Private	Agriculture (Irrigated)	1521	1)Mallikarjun Yashavanth Biradar
					91/2	Private	Agriculture (Irrigated)	368	1)Iranna Mallikarjun Biradar
					91/3	Private	Agriculture (Irrigated)	966.90	1)Bhagawantaray Mahadev Biradar
				94	94	Private	Agriculture (Irrigated)	2015	1)Mallikarjun Irappa Patil 2)Shivanna Irappa Patil
				95	95	Govt.	Agriculture (Dry)	348.20	Govt. Murum Quarry
				96	96/1	Private	Agriculture (Irrigated)	55	1)Channappa Dhareppa Biradar
				97	97/2	Private	Agriculture (Dry)	810	1)Sarojani Sangappa Gogi
				165	165	Govt.	Agriculture (Dry)	252	Govt. Murum Quarry
				166	166	Private	Agriculture (Irrigated)	7846	1)Annappa Sidaray Loni
				167	167/1	Private	Agriculture (Irrigated)	605	1)Jetteppa Mailappa Samagar
					167/2	Private	Agriculture (Irrigated)	552	1)Madeppa Mallappa Samagar
					167/3	Private	Agriculture (Irrigated)	925	Saddanna Viuthoba Beli
				168	168	Private	Agriculture (Dry)	97	1)Rewanayya Bandayya Matha 2)Basayya Nurandayya Matha 3)Rudrayya Sharanayya Matha
				169	169	Private	Agriculture (Dry)	87	1)Shrikanta Hanamanna Hattibelagal
				178	178/1	Private	Agriculture (Irrigated)	2640	1)Irappa Manappa Harijan
					178/2	Private	Agriculture (Irrigated)		1)Manappa Irappa Harijan
						Govt.	Road	132	Govt Road
				171	171	Private	Agriculture (Irrigated)	3312	1)Rajakasab S/o. Badasha Mulla 2)Mainuddin S/o. Badasha Mulla 3)Saifansab S/o. Badasha Mulla 4)Martuja S/o. Badasha Mulla 5)Ismail S/o. Badasha Mulla
				172	172	Govt.	Agriculture (Dry)	546	P.W.D Murum Quarry
				177B	177 B2	Private	Agriculture (Irrigated)	140	1)Chidanand Adivappa Biradar
					177 B3	Private	Agriculture (Irrigated)	96	1)Shrishail Chidanand Biradar
				178A	178 A	Private	Agriculture (Irrigated)	2784	1)Chidanand S/o. Appanna Biradar 2)Shidram S/o. Appanna Biradar
				179 A	179	Private	Agriculture (Irrigated)	1560	1)Malappa Kallappa Kannur
				179 B					
				193	193/2	Private	Agriculture	2286.07	1)Shakuntala W/o Gopal Shirashyad 2) Monika D/o. Gopal Shirashyad 3) Vinod S/o. Gopal Shirashyad 4) Savita D/o Gopal Shirashyad 5)Vishwanath S/o. Gopal Shirashyad M/G
				194	194	Private	Agriculture (Dry)	2784	1) Ningavva D/o. Gurappa Shirashyad 2)Kamalabai W/o. Revappa Shirashyad 3)Avabai D/o. Revappa Shirashyad M/G 4)Niramala D/o. Revappa Shirashyad M/G 5)Sumaning S/o. Revappa Shirashyad M/G 6) Gangabai W/o. Revappa Shirashyad

1	2	3	4	5	6	7	8	9						
								7) Enimappa Ramappa Shirashyad, M/G 8) Shaila D/o. Ramappa Shirashyad, M/G 9) Mallappa S/o. Gurappa Shirashyad 10) Kasturibhai D/o. Gurappa Shirashyad 11) Siddappa S/o. Gurappa Shirashyad 12) Kamachabai D/o. Gurappa Shirashyad 13) Sunandawwa W/o. Gurappa Shirashyad						
				195	195	Private	Agriculture (Irrigated)	1470	1) Jaibunabi W/o. Miyasab Mulla 2) Shajan D/o. Maiyasab Mulla					
				196	196/1A	Private	Agriculture (Dry)	2898	1) Maibub Bandagisab Mulla					
					196/1B	Private	Agriculture (Dry)		1) Mahamad Sharif S/o. Mahiboo Mulla 2) Jalalsa S/o. Mahiboo Mulla 3) Ibrahimsa S/o. Mahiboo Mulla, M/G					
					196/2	Private	Agriculture (Dry)		1) Jaibunabi W/o. Miyasab Mulla					
				197/2	197/2A	Private	Agriculture (Irrigated)	77	1) Mallamma W/o. Mallikarjun Biradar					
					197/2B	Private	Agriculture (Irrigated)	14	1) Laduba Mahamadasa Mulla					
				200/1	200/1	Private	Agriculture (Irrigated)	1740	1) Shakumala W/o. Gopal Shirashyad					
				200/2	200/2	Private	Agriculture (Irrigated)	1200	1) Annesha S/o. Guralingappa Jeegajiwangi					
				200/3	200/3	Private	Agriculture (Irrigated)	2235.28	1) Ramaningappa S/o. Guralingappa Jigajivani					
				201	201/1	Private	Agriculture (Dry)	256	1) Shivanand S/o. Vithoba Pujari 2) Siduling S/o. Vithoba Pujari 3) Aravind S/o. Vithoba Pujari 4) Vithoba S/o. Bhimanna Pujari 5) Chandrshekar S/o. Birendra Pujari					
									201/2	Private	Agriculture (Dry)	140	1) Ajay S/o. Shrishail Patil	
										Govt	Road	86.58	Govt. Road	
									202	202/6	Private	Agriculture (Dry)	102	1) Panchakshri Veerasangayya Swami 1) Vekas Narasappa Gila 1) Vekas Narasappa Gila 1) Somashekar S/o. Panditaray Biradar
										202/7	Private	Agriculture (Dry)		
				202/8	Private	Agriculture (Dry)								
				202/9	Private	Agriculture (Dry)								
				207	207	Govt.	Agriculture (Dry)	492	P.W.D Murum Quarry					
						Govt	Road	4.07	Govt. Road					
				209	209/1A	Private	Agriculture (Irrigated)	3708	1) Basawanta Shivashankar Metri 1) Jagadev Kallappa Hulajenti 1) Ningawwa W/o. Rudragond Biradar 2) Ashok S/o. Bhimaray Gabbur 3) Rajendra S/o. Bhimaray Gabbur 4) Santhosh S/o. Bhimaray Gabbur					
					209/1B	Private	Agriculture (Irrigated)							
					209/2	Private	Agriculture (Irrigated)							
				220	220	Govt.	Agriculture (Dry)	532	P.W.D Murum Quarry					
				221	221/1	Private	Agriculture (Dry)	1792	1) Neelamma W/o. Siddappa Khampur					
					221/2	Private	Agriculture (Dry)	1137.24	1) Sharanappa Irappa Thamba					
				222	222	Private	Agriculture (Irrigated)	1000	1) Appasaheb Madeppa Biradar					

1	2	3	4	5		6		8	9
				223	223/1	Private	Agriculture (Irrigated)	2106	1)Bagawantaray Madeppa.Biradar
					223/2	Private	Agriculture (Irrigated)		1)Chandrakanta Irappa Thambha
					223/3	Private	Agriculture (Irrigated)		1)Neelakka Paragond Biradar
			5) Zalaki	1	1/2	Govt.	Non Agriculture	342.72	Block Development Officer, Indi.
									1)Nabisab Mathap Nadaf
									2)Kajesab Babusab Mulla
									3)Biyama Mahmud Mulla
									4)Vishvanath Siddappa Kambar
								765.00	1)Beeralingeshwar Temple
				2/1	2/1	Private	Agriculture Dry	184.00	1)Pundalik S/o Mallappa Bosale
									2)Indubai W/o Shamarao Pachange
				2/2	2/2	Private	Agriculture (Dry)	148.97	1)Kadasiddeshwar Math
									2)Suresh Pundalik Banasode
									DCC Bank
				2/7	2/7	Private	Agriculture Dry	112.00	1)Santoshkumar S/o Layanna Nashi
									2)Sanjaykumar S/o Layanna Nashi
				2/8	2/8	Private	Agriculture (Dry)	80.00	1)Shankargouda S/o Muttanagouda Biradar
				4	4	Private	Agriculture (Irrigated)	64.00	1)Ramchandra S/o Channappa Patil, @Ramanagouda
				5	5	Govt	Agriculture (Dry)	171.00	Govt Inspection Banglow
				6	6	Private	Agriculture (Dry)	706.00	1)Madhav S/o Sridhar Jagiradar
									2)Govind S/o Sridhar Jagiradar
									3)Manohar S/o Sridhar Jagiradar
									4)Ramesh S/o Sridhar Jagiradar
									5)Narayan S/o Sridhar Jagiradar
									6)KEB
				7	7	Govt	Agriculture (Dry)	546.00	KSRTC
				8/1	8/1A	Private	Non Agriculture	406.00	1)Vikasharaj S/o Veerayya Guttedar
									2)Arjun S/o Honnappa Melakeri
				8/2E1	8/2E1	Private	Agriculture (Dry)	672.00	1) Mohan Rudrappa Ukkali
				8/2E2	8/2E2	Private	Agriculture (Dry)		1)Mariyabi W/o Jahangir Nadaf
									2)Mahabub S/o Jahangir Nadaf
									3)Mamtaj S/o Bahulal Nadaf
									4)Daulatabi W/o Hidayat ali Nadaf
									5)Imam S/o Jahangir Nadaf
									6)Jubeda W/n Rafique Nadaf
				9	9	Govt	Agriculture (Dry)	544.00	Govt Murum Quarry
				10/2	10/2	Govt	Agriculture (Dry)	500.00	District Police Superintendent Bijapur
				10/3	10/3	Private	Non Agriculture (Commercial)	320.00	1)Srimant Revappa Kapse
				11	11	Govt.	Agriculture (Dry)	240.00	Govt Murum Quarry
				13	13/1	Private	Agriculture (Dry)	603.00	1)Balachari S/o Krishnabhat Jahagiradar
									Interested Persons
									2)Dr. Sanga
									3)Ramarao Laxmanrao Pawar
								60.00	1)Shakuntala Gopal Shirashyad
								40.00	1)Srimant Bhimasi Shirashyad
								45.00	1)Ramesh Basayya Guttedar
								25.00	1)Sangappa Shivappa Duddagi
								18.00	1)Shankar Shamarao Pachange

1	2	3	4	5	6	8	9		
						30.00	1)Mohan Rudrappa Ukkali		
						48.00	1)Amasidda Rayappa Pujari 2)Bebinand Pundalik Pujari		
						40.00	1)Manoy Jampanna Toragal		
						21.00	1)Moulasab Ismail Pathan		
						21.00	1)Iqbal Ismail Pathan		
						40.00	1)Baburay Sangappa Biradar		
						40.00	1)Srimant Iranna Badiger		
						44.00	1)Malakappa Ramachandra Kapse		
						44.00	1)Srimant Revappa Kapse		
						90.00	1)Ambuja Dharendra Pujari		
						24.00	1)Rajendra Vithal Shetti		
						24.00	1)Rajendra Vithal Shetti		
						48.00	1)Mahananda Viranna Tuppad 2)Vijaylaxmi Viranna Tuppad 3) Shrikant Viranna tuppadd		
						98.00	1)Sandya Tukaram Patted		
						25.00	1)Afzalkhan Abdulraja Pathan		
						25.00	1)Siddaram Sangappa Biradar		
						63.00	1)Ramesh Basayya Guttedar		
						42.00	1)Siddaram Murigeppa Wah		
						60.00	1)Gurupad Chennappa Simpi		
						26.00	1)Vinayak Surappa Sagai		
						38.00	1)Gangadhar Guruhappa Biradar		
						45.00	1)Shivasharan Mallappa Tuppad		
						60.00	1)Jamiya Masjid		
						60.00	1)Mahananda Viranna Tuppad 2)Vijaylaxmi Viranna Tuppad 3) Shrikant Viranna tuppadd		
				45	45	Private	Agriculture (Irrigated)	3110.93	1)Basanagouda Vithalgouda Patil. 2)Vithalgouda Channappa Patil
				46	46	Private	Agriculture (Irrigated)	1421.61	1)Mahadevi W/o Iranappa Patil
				47	47	Private	Agriculture (Irrigated)	895.00	1)Ramanna S/o Yashavant Sagai 2)Gundappa S/o Shivasangappa Sagai 3)Dundappa S/o Shivasangappa Sagai 4)Vithal S/o Shivasangappa Sagai
				56	56	Private	Agriculture (Irrigated)	2216.40	1)Basanna S/o Sakharan Sagai
				57	57	Govt	Agriculture (Dry)	234.00	Govt Murum Quarry
				58	58/1	Private	Agriculture (Dry)	667.00	1)Manohar S/o Yashawant Chattaraki
					58/2	Private	Agriculture (Dry)	36.00	1)Laxman Jakkappa Awaradi
				61	61/2	Private	Agriculture (Irrigated)	177.00	1)Renukabai W/o Shrishail Sonakanahalli
					61/4	Private	Agriculture (Irrigated)	5234.60	1)Sahebagouda S/o Semanna Bagali
				62	62	Private	Agriculture (Dry)	386.00	1)Shivashankar S/o Vithal Mavinahalli 2)Mallamma w/o Vithal Mavinahalli
				63	63/2A	Private	Agriculture (Irrigated)	12.00	1)Narayan S/o Panduranga Jagiradar
					63/2B	Private	Agriculture (Dry)	114.00	1)Basavaraj S/o Bhcerappa Nandaragi
				80	80/6	Private	Agriculture	125.00	1)Subray S/o Sharanappa Bagali 2)Yashavant S/o Sharanappa Bagali 3)Suresh S/o Chandrakant Bagali
				82	82	Private	Agriculture (Irrigated)	3920.00	1)Gopal S/o Nagurao Kulkarni
				83	81	Private	Agriculture	2488.00	4)Rama S/o Husseni Madar

1	2	3	4	5		6	(Irrigated)	8	9	
									2)Saibu S/o Ganapati Kagar 3)Kamalavva W/o Shrishail Barur	
				84	84	Govt	Agriculture (Dry)	481.00	Govt Murum Quarry	
				85	85/1	Private	Agriculture (Irrigated)	517.00	1)Appasab S/o Sanra Biradar	
					85/2	Private	Agriculture (Irrigated)	463.70	1)Appasab S/o Basanna Biradar	
				87	87/1	Private	Agriculture (Dry)	2604.90	1)Nadagouda S/o Somanna Bagali	
					87/2	Private	Agriculture (Dry)		1)Bhimabai W/o Balaram Pachange 2)Parasharam S/o Shyamrao Pachange	
				88	88	Govt	Agriculture (Dry)	433.50	Govt Murum Quarry	
				89	89	Govt	Agriculture (Dry)	312.00	Govt Murum Quarry	
				90	90	Private	Agriculture (Dry)	3240.10	1)Ashok S/o Vithalacharya Jagiradar 2)Anil S/o Ashok Jagiradar 3)Abhaya S/o Ashok Jagiradar	
				124	124	Govt	Agriculture (Dry)	330.00	Govt Murum Quarry	
				125	125/1	Private	Agriculture (Dry)	1848.00	1)Chandappa Sharanappa Nandaragi	
				Village	Village	Govt.	Gaonthan	147.00	Village Gaonthan <u>Interested Persons</u> 1)Naganna Siddabir Pujari 2)Shivanand Revappa Pujari 3)Homnappa Yashavant Pujari 4)Pundalik Maliappa Bosle 5)Bhimashankar Duryodhan Bosle 6)Balaram Duryodhan Bosle 7)Parasuram Gangaram Pachange 8)Lalita Ashok Pachange 9)Siddaram Buddivant Pachange 10)Ramachandra Ammogi Bajantri 11)Bhagirati Ammogi Bajantri 12)Mahadevi Malakari Lomatore 13)Sunanda Laxman Dixit 14)Hanamant Shivappa kagar 15)Somaling Nagappa Kagar 16)Healih Department	
				6)Ballolli	1	1	Private	Agriculture (Irrigated)	1136.70	Muktarahmed s/o abdulwahid Dakhami
					2	2	Private	Agriculture (Irrigated)	544	Shrishail S/o. Bheerappa Shirashyad
					4	4	Private	Agriculture (Irrigated)	544	1) Dasharat S/o. Madappa Talawar 2) Mallappa S/o. Hegappa Naikodi 3) Kashinath S/o. Sharanappa Donagaon 4) Iranna S/o. Shrishail Wali 5) Sidram S/o. Murigeppa Wali 6) Iranna S/o. Siddanna Kambar 7) Mallikarjun S/o. Shankar Sonnagi 8) Shrinath Malabai S/o. Krishna Bise 9) Arunsing S/o. Pratapsing Thakur 10) K M Ileyaraja 11) Manoj S/o. Vithal Nagapure

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								12) Shrishail S/o. Birappa Shirashyad
				5	5	Private	Agriculture (Irrigated)	198 1)Ekanath S/o. Kalappa Maradekar.
				6	6/2	Private	Agriculture (Irrigated)	360 1)Ekanath S/o. Kalappa Maradekar
				7	7/4	Private	Agriculture (Irrigated)	252 1) Shankar S/o. Jayappa Talawar
						Govt	Agriculture (Dry)	2) KIADB Bangalore
						Private	Agriculture (Irrigated)	3) Amasidda S/o. Jayappa Talawar
				9	9	Private	Agriculture (Irrigated)	444 1) Parasappa S/o. Satyappa Koli 2) Shekawwa W/o. Paragond Mali 3) Shrimant S/o. Mallappa Tuppad 4) Shantabai W/o. Basavaraj Metri 5) Arjun S/o. Satyappa Koli (Walikar) 6) Bhimasya S/o. Satyappa Koli (Walikar) 7) Smt. Kashibai D/o. Krishna Bise 8) Siddaram S/o. Murigeppa Wali 9) KIADB Bangalore
				12	12/1	Private	Non Agriculture	720 1)Mahadevi W/o. Sangappa Badiger
					12/2	Private	Agriculture (Irrigated)	1992 1)Appanna S/o. Rudrappa Badiger
				13	13/2	Private	Agriculture (Irrigated)	30 1)Shivanand S/o. Shankar Badiger
					13/3	Private	Agriculture (Irrigated)	140 1)Iranna S/o. Rudrappa Badiger 2) Appash S/o. Rudrappa Badiger 3) Madeppa S/o. Rudrappa Badiger 4) Monappa S/o. Rudrappa Badiger 5) Shrishail S/o. Rudrappa Badiger 6) Ramachandra S/o. Rudrappa Badiger
					13/4	Private	Agriculture (Irrigated)	84 90 1) Ningappa S/o. Irappa Kambali 2) Mallappa S/o. Danappa Badiger 3) Iranna S/o. Shrishail Walli
				15/1	15/1	Private	Non Agriculture	215.40 1) Siddaram S/o. Murigeppa Wali 2) Vijaya W/o. Bhimashankar Wali 3)Rekha W/o. Mohan Desai 4) Abilash S/o. Bhimashankar Wali M/G
				18	18/3	Private	Agriculture (Irrigated)	330 1)Vithal S/o. Ningappa Barur 2) Chandrakant S/o. Ningappa Barur 3) Mahadev S/o. Vithal Mundodagi
				19	19	Private	Agriculture (Dry)	480 1)Shrimant S/o. Bhimaray Shinde M/G
				20	20	Govt	Non Agriculture	1025 Mnther Rukminibai Govt Murum Quarry
				45	45	Private	Agriculture (Irrigated)	614 1) Jotyappa S/o. Padmanna Sagai 2) Siddappa S/o. Somnanna Sagai
				64	64/1	Private	Non Agriculture	710 1)Rajashekhar S/o. Veerayya Gachinamath
					64/2	Private	Non Agriculture	560 1)Ashokkumar S/o. Venkataran Lambavali
					64/3	Private	Agriculture (Dry)	7331.10 1)Sainasab S/o. Nabilal Mulla
				65	65	Private	Agriculture	150 1) Nabilal S/o. Abdul Pinjar 2) Habbu S/o. Dastagir Pinjar 3) Nabilal S/o. Abdul Pinjar 4) Abdul S/o. Saivyaal Pinjar 5) Vajera S/o. Moula Pinjar 6) Ruknuddin S/o. Moula Pinjar 7) Bismilla W/o. Bhashatal Pinjar 8) Balima W/o. Kashimasab Pinjar 9) Hasanama W/o. Moula Pinjar



1	2	3	4	5		6		8	9
				66/1	66/1	Private	Agriculture (Dry)	525	1)Necta Purnachandrarao Solapur
				70	70/1	Private	Agriculture (Dry)	45	1) Bhimanna S/o. Kamanna Metri 2) Siddappa S/o. Kamanna Metri 3) Hanamant S/o. Kamanna Metri
					70/2	Private	Non Agriculture	164	1)Ramavadasing S/o. Babanasing Thakur
				74	74	Private	Agriculture (Irrigated)	890	1)Ramagond S/o. Paragond Walikar
				75	75/1, 75/2	Private	Agriculture (Irrigated)	1180	1)Prakash S/o. Ambanna Kalaburgi
				82	82/2	Private	Agriculture (Irrigated)	275	1)Topanna S/o. Khobbanna Talawar
					82/3	Private	Agriculture (Irrigated)	180.10	1)Irappa S/o. Khobbanna Talawar
				83	83	Private	Agriculture (Irrigated)	694.50	1)Irappa S/o. Khobbanna Talawar
				84	84	Private	Agriculture (Irrigated)	2056	1) Mangala W/o. Madev Sagi 2) Vithoba S/o. Madev Sagi 3) Birappa S/o. Madev Sagi M/G Mother 4) 1) Mallakka D/o. Malappa Sindhe 2) Muttakka D/o. Malappa Sindhe 3) Havalakka D/o. Malappa Sindhe 4) Neelakka D/o. Malappa Sindhe
				102	102/1	Private	Agriculture (Irrigated)	2125	1) Gangabai W/o. Guranna Metri 2) Vithal S/o. Guranna Metri 3) Mahadev S/o. Guranna Metri 4) Shivappa S/o. Guranna Metri 5) Sunanda W/o. Annappa Latur 6) Hanamant S/o. Guranna Metri
					102/2	Private	Agriculture (Irrigated)		1) Annappa S/o. Revappa Metri
				103	103/1	Private	Agriculture (Irrigated)	1008.20	1) Saitanasab S/o. Alhsab Walijar 2) Adiveppa S/o. Shrimant Metri 3) Nurajan W/o. Saitanasab Walikar 1)Somashekar S/o. Sidaray Malabagi
					103/2	Private	Agriculture (Irrigated)		
					103/3	Private	Agriculture (Irrigated)		1)Shrimant S/o. Siddaram Metri
				252	252	Govt	Non Agriculture	720	1) Excise Department Chekpost 2) Tourism Department 3) Village Accountant Residence 4) National Highway 5) Govt Murum Quarry
				253/1	253/1A	Private	Agriculture (Irrigated)	1297.59	1) Ramanna S/o. Laxman Marathe 2) Gururaj S/o. Revanasiddappa Wali
					253/1B	Private	Agriculture (Irrigated)		1) Annappa S/o. Laxman Marathe
					253/1C	Private	Agriculture (Irrigated)		1) Hirabai W/o. Appanna Marathe 2) Sambaji S/o. Appanna Marathe 3) Shivaji S/o. Laxman Marathe
					253/1D	Private	Agriculture (Irrigated)		
					253/1F	Private	Agriculture (Irrigated)		1)Tanaji S/o. Laxman Marathe
				253/2	253/2/1	Govt.	Non Agriculture	1128	1) Govt. Land
						Private	Agriculture (Dry)		2) Ashok S/o. Mallikarjun Kalyani
				254/1A	254/1A	Private	Agriculture (Dry)	120	1) Smita D/o. Raghavendra Galagali 2) Sangeeta D/o. Raghavendra Galagali
				254/1B	254/1B	Private	Agriculture (Dry)	924.80	1)Putappa S/o. Bhimashankar Bhairagond
				254/1C	254/1C	Private	Agriculture (Dry)	893	1)Basavaraj S/o. Hanamantarao Koulagi

1	2	3	4	5		6		8	9
				254/2	254/2	Private	Agriculture (Dry)	10	1)Abhilasha D/o. Arjun Saradar
				254/3	254/3	Private	Agriculture (Dry)	180	1)Arjun S/o. Ganapati Saradar
			7) Gundawan	202	202	Private	Agriculture (Dry)	150	1)Basavantaray S/o. Balappa Biradar
				204	204/1	Private	Agriculture (Dry)	1769.83	1)Sanganagoud S/o. Balappa Biradar
					204/2	Private	Agriculture (Dry)		1)Sharanappa S/o. Ramachandra Navi
				205	205/1	Private	Agriculture (Irrigated)	2727.88	1)Shrimant S/o. Bhimanna Loni
					205/2	Private	Agriculture (Irrigated)		1)Vithal S/o. Bimanna Loni
					205/3	Private	Agriculture (Irrigated)		1)Golalappa
									2)Yallappa
									3)Shiddappa S/o. Bisalappa Loni
				206/1	206/1	Private	Agriculture (Irrigated)	1176	1)Siddaling S/o. Bhimaray Khanapur
				206/2	206/2	Private	Agriculture (Irrigated)	993.64	1)Sarubai W/o. Shivashankar Hadapad
				207	207	Private	Agriculture (Irrigated)	2512	1)Vithal S/o. Annaray Khanapur
				208/1	208/1	Private	Agriculture (Dry)	12	1)Parvati W/o.Shankar Bhavi
				209	209/1	Private	Agriculture (Dry)	115	1)Vithal S/o. Birappa Savukar
					209/2	Private	Agriculture (Dry)		1)Bhagavva W/o. Kantappa Kantapur
				214/1	214/1	Private	Agriculture (Irrigated)	374	1)Avuhai W/o. Bhimanna Loni
									2) Bisalappa S/o. Bhimanna Loni
									3) Shrimant S/o. Bhimanna Loni
									4) Vithal S/o. Bhimanna Loni
									5) Shantabai W/o. Bhirappa Nandaragi
				214/2	214/2	Private	Agriculture (Irrigated)	192	1)Kareppa Teerthappa Hosur
									2)Sayabanna S/o. Teerthappa Hosur
				215/1A	215/1A	Private	Agriculture (Irrigated)	766	1)Sumabai W/o. Jotiba Wagamore
									2) Yashvani S/o. Jotiba Wagamore
									3) Ganapati S/o. Jotiba Wagamore
									4) Ramesh S/o. Jotiba Wagamore
									5)Prakash S/o. Jotiba Wagamore
				215/1B	215/1B	Private	Non Agriculture		1)Ganapati S/o. Jotiba Wagamore
									2)Prakash S/o. Jotiba Wagamore
				221	221	Private	Agriculture (Irrigated)	441	1)Chandram S/o. Namadev Goundi
						Govt	Road	182	Govt Road
				222/3	222/3	Private	Agriculture (Dry)	2990	1)Ismail S/o. Mohiddinsab Shekh
									2) Mukhatiyarasing S/o. Deelipashing Multani (Bhulatani)
				226/1	226/1	Private	Agriculture (Dry)	60	1)Ameenab Maktumasab Patil
				226/2	226/2	Private	Agriculture (Dry)	18.55	1)Girimallappa Shivalingappa Navi
				227	227	Private	Agriculture (Irrigated)	3036.01	1)Mehamudapashya Saheb Saje Pairojabad
									2) Murtujabi W/o. Sadiqsaheb Junedi
									3) Bipashanabi W/o. Tajuddin Junedi
									4) Khanijabi W/o. Sahebahajarat Pairojabad
									5)Rahamatabi W/o. Saiyadsultan Khadri Inamadar
				251	251/1	Private	Agriculture (Irrigated)	259.5	1)Narayan Laxman Ingole

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				251/2	Private	Agriculture (Irrigated)		1)Viswanath Laxman Ingole
				252	252/1	Private	738.53	1)Narayan Laxman Ingole
					252/2	Private		1)Viswanatha Laxman Ingole
				253	253	Govt.	413	1)Cherman V.P.C Kapanimbargi
				254	254	Private	4706	1)Bhirappa Navalappa Pujeri
				276	276/2	Private	2570	1)Abduls Saifnsa Mulla
				277/5	277/5	Private	6016	1)Maibusa Appalai Mulla
				278	278	Govt	130	1)Masanawat ( Burial Ground) (Govt)
				279	279	Govt	665.66	1)Mufat Gairana (Govt.)
				Village	Village	Govt	300	Gaonthan
								<b>Interested Persons</b>
								1) Hirabai Dyawappa Logavi
								2)Annappa Dundappa Badiger
								3)Sajfansab Nabilal Mulla
								4)Hanamant Jakkanna Kadekade
								5)Abdul Ibrahim Zalaki
								6)Rukmoddin Rajesh Maniyar
								7)Bhairushing Laxman Sinda
								8)Mahadevi Dondiram Babar
								9)Syafansab Husenasab Zalaki
								10) 1) Shidramayya Basayya Hiremata
								2) Laxmi Shidramayya Hiremata
								11) Malleshi Tukanna Ballikatti
								12) Shilawant Malleshi Bellikatti
			8)Kapanimbargi	50/1	50/1A	Private	566.69	1)Jakeer S/o.Flyedar Kureshi
				50/2	50/2A	Private	99.99	1)Bhimaray S/o. Shankareppa Pujari.
					50/2B			1) Madar s/o Suleman Nadaf
				51	51/1	Private	2345	1)Siddanagoud S/o. Yashwanitagoud Patil
						Govt	852	Executive Engineer Minor Irrigation Division Bijapur
					51/3	Private	1657	1)Ambadasmaharaja S/o. Murari Karande
						Govt	620	Executive Engineer Minor Irrigation Division Bijapur
					51/4	Private	1196	1)Ashok S/o. Kallappa Balaganur
				52	52/1+1/A	Private	2366	1)Bhimashankar S/o. Balappa Kumbar
					52/1+1/B	Private		1)Rudrappa S/o. Balappa Kumbar
					52/1+1/C	Private		1)Chandram S/o. Balappa Kumbar
					52/1+2	Private		1)Sanganabasappa S/o. Sharanappa Alloli
					52/1+3	Private		1)Bhimaray S/o. Mudigoud Babalad
					52/2	Private		1)Acchutarao S/o. Krishnaji Despande
								2) Keshawa S/o. Krishnaji Despande
								3) Executive Engineer Minor Irrigation Division Bijapur
				55	55/2	Private	1756	1)Chandasab S/o. Shilemanasab Nadaf

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				70/2A	Private	Agriculture (Irrigated)		1) Mahantesh S/o. Siddanagoud Patil
				70/2B/A	Private	Agriculture (Irrigated)		1) Mahantesh S/o. Siddanagoud Patil
				70/2B/B	Private	Agriculture (Irrigated)		1) Rajashekhar S/o. Yamanappa Mukarital
				72	72/2A/1	Private	Agriculture (Dry)	1778.87 1) Sudhabai W/o. Gurumadwa charya Jahagiradar
				73	73	Private	Agriculture (Irrigated)	992 1) Kallappa S/o. Gurappa Madar J.F.M
				74/1	74/1A	Private	Agriculture (Irrigated)	1497.74 1) Channappa S/o. Somanna Dalawai
					74/1B	Private	Agriculture (Irrigated)	1) Amogasidd S/o. Bhairappa Dalawai
					74/1C	Private	Agriculture (Irrigated)	1) Amogashidd S/o. Bhedappa Dalawai 2) Shivashankar S/o. Bhedappa Dalawai 3) Kasinatha S/o. Bhedappa Dalawai
				74/2	74/2	Private	Agriculture (Irrigated)	1080 1) Manageni S/o. Bhedappa Dalawai
				75	75/1	Private	Agriculture (Irrigated)	1249.26 1) Muralidhar S/o. Pundalik Jahagiradar
					75/2	Private	Agriculture (Irrigated)	1) Vittal S/o. Bhcerappa Sayukar 2) Mudagond S/o. Bhcerappa Savukar
				76	76	Private	Agriculture (Irrigated)	1453.62 Muralidhar S/o. Pundalik Jahagiradar
				77	77/1A/1	Private	Agriculture (Dry)	341.29 1) Kamalakkar S/o. Vishnupant Dashavant M/G Mother Nimnala
					77/1A/2	Private	Agriculture (Dry)	1) Vishnupant Mother Kaveribai Dashavant
					77/1A/1/3 A	Private	Agriculture (Dry)	1) Nirmala W/o. Vishnupant Dashavant 2) Mallamma D/o. Gurupad Tiganbidari 3) Vithal S/o. Kallappa Gugadaddi
					77/1A/1/3 B	Private	Agriculture (Dry)	Sunita W/o. Dundappa Khanapur
					77/2B/1	Private	Agriculture (Dry)	1) Sunil S/o. Subhas Dasavant 2) Sudhir S/o. Subhas Dasavant M/G Father Subhas
					77/2B/2	Private	Agriculture (Dry)	1) Kaikavati W/o. Subhas Dasavant
					77/2	Private	Agriculture (Dry)	1) Hanamant S/o. Channappa Dalawai
				78	78/1	Private	Agriculture (Irrigated)	136.03 1) Amogasidda S/o. Kareppa Karagane
					78/2	Private	Agriculture (Irrigated)	1) Jakaray S/o. Kareppa Karagane
				82/1	82/1	Private	Agriculture (Irrigated)	3584 1) Shivalingappa S/o. Guralingappa Shinakhed 2) Hanamanta S/o. Guralingappa Shinakhed 3) Bahuray S/o. Guralingappa Shinakhed
				84	84/1	Private	Agriculture (Irrigated)	4200 1) Padamavati W/o. Venkatesh Mujindar 2) Aksati D/o. Venkatesh M/G Mother Padamavati 3) Subhauha D/o. Govind Mujindar
					84/2	Private	Agriculture (Irrigated)	1) Sudhir S/o. Vasantaran Jahagiradar 2) Subhas S/o. Vasantaran Jahagiradar
				85	85/1	Private	Agriculture (Irrigated)	1399.21 1) Mahadev S/o. Sayabanna Pujari
					85/2	Private	Agriculture (Irrigated)	1) Satappa S/o. Sayabanna Nadur
			9) Hatagonaki	106/1	106/1	Govt.	Nala	197.03 Nala
				113	113/1	Private	Agriculture (Irrigated)	3063 1) Basappa S/o. Thakkappa Hegdtyal

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				113/2A	Private	Agriculture (Irrigated)		1)Girijabai W/o. Annappa Harijan
				113/2B	Private	Agriculture (Irrigated)		1)Rajakka W/o. Bhimashya Harijan
				115	115	Private	Agriculture (Irrigated)	1909 1)Madappa S/o. Shivalingappa Sunchyal
				116	116/1/1	Private	Agriculture (Irrigated)	930 1)Sadashiv S/o. Thakkappa Hegadyal
					116/1/2	Private	Agriculture (Irrigated)	1)Gangadhar S/o. Thakkappa Hegadyal
					116/2	Private	Agriculture (Irrigated)	1)Madappa S/o. Shivalingappa Sunchyal
					116/3	Private	Agriculture (Irrigated)	1)Shankreppa S/o. Appasaheb Patil
				117	117/A	Private	Agriculture (Irrigated)	1305 1)Basappa S/o. Thakkappa Hegadyal
					117/B	Private	Agriculture (Irrigated)	1)Bhimaraya S/o. Thakkappa Hegadyal
					117/C	Private	Agriculture (Irrigated)	1)Sadashiv S/o. Thakkappa Hegadyal
				118	118/1A	Private	Agriculture (Irrigated)	1060 1) Layappa S/o. Yallappa Holer
					118/2A	Private	Agriculture (Irrigated)	2) Manohar S/o. Yallappa Holer
					118/2/1	Private	Agriculture (Irrigated)	3) Bhimaray S/o. Yallappa Holer
					118/2/2	Private	Agriculture (Irrigated)	1)Basappa S/o. Thakkappa Hegadyal
					118/3	Private	Agriculture (Irrigated)	1)Annappa S/o. Bhimanna Harijan M/G Mother Rajakka
								1)Ramappa S/o. Hanamappa Harijan
								1)Sayavva W/o. Huchappa Kadma
				119	119	Private	Agriculture (Irrigated)	866.15 1)Mainavva W/o. Dhareppa Kamble
								2)Neelabai W/o. Shatteppa Banage
				120	120/1A	Private	Agriculture (Irrigated)	2814.81 1)Annappa S/o. Bhimashya Harijan M/G Mother Rajakka
					120/1B	Private	Agriculture (Irrigated)	1)Ramappa S/o. Hanamant Harijan
					120/2 P.1	Private	Agriculture (Irrigated)	As per R/R
					120/2 P.2	Private	Agriculture (Irrigated)	1)Mahibubali S/o. Manjureseni Sopheghar
					120/2 P.3	Private	Agriculture (Irrigated)	1)Ramahai W/o. Bhimaray Yathar (Harijan)
				121/1	121/1	Private	Agriculture (Irrigated)	40 1)Dharmaray S/o. Shivashankar Biradar
								2) Dharmaray S/o. Shivashankar Biradar
				121/2	121/2	Private	Non Agriculture (Commerci)	185 1)Basappa S/o. Thakkappa Hegadyal
				122	122/1	Private	Agriculture (Irrigated)	1187.56 1) Gangavva W/o. Chidanand Kamble
					122/2	Private	Agriculture (Irrigated)	2) Bhimavva W/o. Basappa Banasode
								3) Syayavva W/o. Huchappa Kadam
								1)Layappa S/o. Yallappa Harijan
				123	123	Govt.	Agriculture (Dry)	1140.89 Govt. Murum Quarry
				124	124/1	Private	Agriculture (Irrigated)	2580 1)Chandappa S/o. Maruti Harijan
					124/2	Private	Agriculture (Irrigated)	1)Raju S/o. Mandi Halli
								2) Shrishail S/o. Maruti Halli
					124/3	Private	Agriculture	1)Vithal S/o. Bhimashya Halli J.F.M

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						(Irrigated)		2) Tippavva W/o. Sharnappa Halli J.F.M
				128	128	Private	Agriculture (Irrigated)	972.14 1)Shivanand S/o. Tukaram Kumbar
				129	129	Private	Agriculture (Irrigated)	990 1)Parashuram S/o. Hanamant Kumbar
				130	130	Private	Agriculture (Irrigated)	1000 1)Shivanand S/o. Hajappa Kumbar
				152	152	Private	Agriculture (Irrigated)	5 1)Basappa S/o. Thakkappa Hegadyal 2) Bhimsay S/o. Thakkappa Hegadyal 3)Sadashiv S/o. Thakkappa Hegadyal 4) Gangadhar S/o. S/o. Thakkappa Hegadyal 5) 1)Tarabai W/o. Basanna Bhuyyar 6) Appasab S/o. Basanna Bhuyyar 7) Kallappa S/o. Babanna Bhuyyar 8) Bharati W/o. Rajashekhar Yalagond
			10)Sonakanahalli	72A	72A	Private	Agriculture (Dry)	1367 1)Sidaray S/o Parasappa Koli 2)Lakkavva D/o Parasappa Koli 3) Laxmibai D/o Parasappa Koli, 4) Sharanavva W/o Parasappa Koli
						Govt.	Road	135 Govt. Road
						Govt.	Road	582.09 Govt Old Road
				74	74	Private	Agriculture (Dry)	8 1)Irappa S/o Lakkappa Koli
				75	75	Private	Agriculture (Dry)	1125.64 1)Bhimaray S/o Mudigouda Babaladi, 2) Indrabai W/o Laxman Holer, @ Deginalkar,
				78	78/1	Private	Agriculture (Irrigated)	2937 1)Vithoba S/o Ramanna Pujari
					78/1x1	Private	Non Agriculture	1)Vithoba S/o Ramanna Pujari
					78/2	Private	Agriculture (Dry)	1)Ramanna S/o Vithoba Pujari
				79	79/A/1	Private	Agriculture (Dry)	182 1)Amasidda S/o Ekaram Pujari
					79/A/2	Private	Agriculture (Dry)	616 1)Harun S/o Sagaru Khan
					79/A/3	Private	Agriculture (Dry)	165 1)Tukaram S/n Ekaram Pujari
					79/A/4	Private	Agriculture (Dry)	92 1)Ramanna S/o Parasappa Pujari
					79/A/6	Private	Agriculture (Dry)	1125 1)Ramanna S/o Parasappa Pujari
					79/A/7	Private	Agriculture (Dry)	264 1)Ramanna S/o Vithoba Pujari
				83	83	Private	Agriculture (Dry)	700 1)Baburao S/o Ranga Kulakarni 2) Bhargavi D/o Rajkumar Kulakarni M/G Mother Vani W/o Rajkumar Kulkarni
				84	84/1A	Private	Agriculture (Dry)	1913 1)Vithoba S/o Ramanna Pujari,
					84/1B	Private	Agriculture (Dry)	As per R of R
					84/1C	Private	Agriculture (Dry)	1)Anand S/o Ramanna Pujari
					84/2	Private	Agriculture (Dry)	1)Balavani appa S/o Ramanna Pujari
					84/213	Private	Agriculture (Dry)	1)Parasappa S/o Ramanna Pujari
				85	85	Private	Agriculture (Dry)	630 1)Mallavva W/o Sriman Shivasharan. 2)Kallappa S/o Basagond Halagunaki @ Bhuyyar.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								3) Appasaheb S/o Basagond Halagunaki @ Bhuyyar, 4) Bharati W/o Rajashekar Yalagond, 5) Tarabai W/o Basagond, Halagunaki, @ Bhuyyar	
				86	86/1	Private	Agriculture (Dry)	150	1) Yaseen S/o Maibubali Sofeghar M/G Mother Sayarbhanu
					86/2	Private	Agriculture (Dry)	290	1) Murtuj Manjur S/o Husseni Sofeghar
				87	87/A	Private	Agriculture (Dry)	1349.45	1) Mahammadhusen S/o Abdul Poujadar 2) Shivappa S/o Chandram Harijan 3) Malavva W/o Vittal Kamble, 4) Janabai W/o Nagappa Savukar, 5) Gurubai W/o Balappa Kamble, 6) Shamibai W/o Parasappa Kamble, 7) Sundrabai W/o Basavanath Narenavar 8) Revanasidda S/o Chandrama Harijan 9) Muragendrayya S/o Gurupadayya Hiremath 10) Kallappa S/o Bhimanna Harijan 11) Jayahim S/o Yallappa Harijan 12) Revanasidda S/o Yallappa Harijan, 13) Gopal, S/o Adivappa Harijan, 14) Bhimappa S/o Adivappa Harijan, 15) Anand S/o Adivappa Harijan, 16) Hanuman S/o Adivappa Harijan, 17) Ramabai W/o Ramesh Kamble, 1) Jakkappa S/o Sidram Pujari
				90	90	Private	Agriculture (Dry)	150	1) Kashiram S/o Sidram Pujari
				93	93/1A	Private	Agriculture (Dry)	1994	2) Prakash S/o Basappa Hegadyal
					93/1B	Private	Agriculture (Dry)		1) Shivagond Sidram Pujari,
		(1) Mahal Bagayat		67	67/1	Private	Agriculture (Dry)	1400	As pre RoR
				68	68/1C/2P. (1)	Private	Non Agriculture	50	1) Suresh S/o. Asalachandaji Sankalecha @ Jain
					68/1C/2 P.29	Private	Non Agriculture	44	1) Suresh S/o. Asalachandaji Sankalecha @ Jain
						Govt	Service Road	100	Govt Service Road
						Govt	Road	640	Bufet & Service Road
					68/1C/1B P.No.1	Private	Non Agriculture	50	1) Manish S/o. Babulal Mehra
						Govt	Road	40	Service Road
						Govt	Road	480	Bufet & Service Road
					68/1A/1 P.No. 24	Private	Non Agriculture	50	1) Abdul Rajak S/o. Hussensa Gadawale
					68/1A/1 P.No. 53	Private	Non Agriculture	32	1) Abdul Rajak S/o. Hussensa Gadawale
						Govt	Road	32	Service Road
						Govt	Road	696	Bufet & Service Road
					68/1A/2	Private	Non Agriculture	144	As per RoR
						Private	Road	822.87	Bufet & Service Road
				69	69/3A	Private	Agriculture (Dry)	540	1) Manjunath S/o. Prabhu Alagond



1	2	3	4	5		6		8	9
					69/3B	Private	Agriculture (Dry)	240	1)Narasing S/o Govind Jadhav
					69/3C	Private	Agriculture (Dry)	180	1)Vishwanath S/o. Mallikarjun Alur
					69/4	Private	Agriculture (Dry)	3648	1)Gurabasappa S/o Shivanandappa Rudgi
				102	102/2	Private	Agriculture (Dry)	675.67	1)Kashibai Ambaji Anjikhane
									2) Ashok Ambaji Anjikhane
									3) Dattu Ambaji Anjikhane
									4)Krishna Ambaji Anjikhane
									5) Tulajabai W/o. Raju Bhaskar
									6)Vithal Ambaji Anjikhane
									7)Geeta W/o. Sadashiv Anjikhane
									8) Shankar S/o. Ambaji Anjikhane
									9) Municipality Councillor Bijapur
				103	103 1B+2/I	Govt.	Road	613	Bufet & Service Road
					103/2A	Govt.	Non Agriculture	635	Bufet & Service Road
				117/2	117/2	Private	Agriculture (Dry)	580	1)Maruti Vithoba Anjikhane
									2)Sainath S/o. Maruti Anjikhane
									3)Krishna S/o. Maruti Anjikhane
									4)Chaya W/o. Maruti Anjikhane
				118	118	Private	Agriculture (Dry)	4073	1)Bhimanna Ramanna Uppar
									2) Arjun Ramanna Uppar
									3) Subhas Ramanna Uppar
									4) Shivaji Ramanna Uppar
									5) Janabai W/o. Mahadevappa Uppar
									6)Suvama D/o. Madehavappa Uppar
									7)Manjula D/o. Madehavappa Uppar
									8)Danappa S/o. Madehavappa Uppar
				130/1	130/1A	Private	Agriculture (Dry)	402	1)Goutamachand Umedamalla Jain
					130/1B	Private	Agriculture (Dry)	400	1)Krishnaji S/o. Sidduba Khade
				130/3	130/3	Private	Agriculture (Dry)	272	1)Arun Appasaheb Nadagouda
130/5	130/5	Private	Agriculture (Dry)	140.86	1)Vandana Shyamasundar. Tosaniwal				
130/6	130/6A	Private	Agriculture (Dry)	336.56	1)Mahadev. S/o. Satyappa. Mali @ Malagar				
133/1	133/1	Private	Agriculture (Dry)	324	1)Chandrabag Vithal Gaddapagavali				
					2) Yashawant Vithal Gaddapagavali				
					3)Nectaji S/o. Vithal Gaddapagavali				
					4)Datta S/o. Vithal Gaddapagavali				
		Govt.	Road	87.27	Indi Road Area				
134	134/2B	Private	Agriculture (Dry)	102	1)Nabirasul. S/o. Amcenasab. Mamadapur				
	134/2C	Private	Agriculture (Dry)	52	1)Saleem S/n. Abdulrajak Darga				
	134/2D	Private	Agriculture (Dry)	46	1)Aravind S/n. Rudrappa Ukkali				
	134/2E	Private	Agriculture (Dry)	34	1) Abdulsubhan. S/o. Mahamadasab. Hullur				
					2) Rajahmad. S/o. Mahamadsab. Hullur				
	134/1C/1	Private	Non Agriculture	29 .07	1)Anjali W/o. Ashok Uppin				
145	145	Private	Agriculture	1815	1) Shantilal. S/o. Nemachand. Nahar				

1	2	3	4	5	6	(Dry)	8	9	
								2) Leelabai, Maganlal, Nahar	
								3) Mohanlal, Maganlal, Nahar	
								4) Ratilal, Maganlal, Nahar	
								5) Rameshchand, Maganlal, Nahar	
								6) Kishorechand, Maganlal, Nahar	
								7) Surekha, Mahendrakumar, Shaha	
								8) Saroja, Bhairatal, Lokande	
								9) Chanchulabai, Balachand, Nahar	
				148	148/1 148/2	Govt	Road	366	Govt Service Road
				149	149/1A/1	Private	Non Agriculture	100	1) Veerakumar S/o. Heerachand Porwal
					149/1A/2	Private	Agriculture (Dry)	357	1) Shamshuddin S/o. Rajesah Soratur
					149/1A/3	Private	Non Agriculture	490	1) Veerakumar S/o. Hiraachand Porwal
				219	219A	Private	Agriculture (Dry)	66	1) Vikas S/o. Shivappa Mangalwade 2) Vilas S/o. Shivappa Mangalwade 3) Vinod S/o. Shivappa Mangalwade 4) Shivalingappa S/o. Basappa Mangalwade 5) Jagadish 6) Rajashekhar S/o. Shivalingappa Mangalwade 7) Shantaveer 8) Vijayakumar 9) Vinoda 10) Vikas
				223	223/1	Private	Agriculture (Dry)	1472	1) S M Anand
					223/2	Private	Non Agriculture	1255	1) Mallikarjun S/o. Siddappa Kadapatti
				225	225/A	Private	Agriculture (Dry)	1567	CMC Bijapur Masan Watt
					225/B1	Private	Agriculture (Dry)		Jamirhamad S/o. Abdulhameed Bangi
					225/B2	Private	Agriculture (Dry)		1) Siddappa S/o. Gulappa Shetagar 2) Appanna S/o. Gulappa Shetagar 3) Rajabhekhar S/o. Gulappa Shetagar 4) Mhadevappa M/G Mother Gangabai Gulappa Shetagar
				226	226/1A	Private	Agriculture (Dry)	728	As per RoR
					226/1C	Private	Agriculture (Dry)	403.7	1) Gurupadappa S/o. Parasappa Loganvi 2) Hanamanth S/o. Gurupadappa Lnganvi
				227	227	Private	Agriculture (Dry)	1678.40	1) Sudhabai W/o. Balakrishna Kalamadi
				234	234/1A/1	Private	Agriculture (Dry)	85	1) Ravikumar S/o. Muralidhar Darabar 2) Udayakumar S/o. Muralidhar Darabar 3) Manojkumar S/o. Muralidhar Darabar 4) Ranjana Anilkumar Desai 5) Kishori W/o. Rajesh Parik
					234/1A/2	Private	Non Agriculture	245	1) Ganapati S/o. Chakalu Jadhav 2) Keshu S/o. Chakalu Jadhav
					234/1B	Private	Non Agriculture	300	1) Devayya S/o. Chidanand Sali 2) Ganapati S/o. Chakalu Jadhav

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3) Ramesh Nanu Lamani
								4) Hamjahusen S/o. Madarasab Kannur
								5) Danappa S/o. Keshu Rathod
								6) Bhimanna S/o. Kallappa Kattimani
								7) Sharanabasappa Kallappa Kattimani
								8) Siddaruda S/o. Gurupadappa Shahapur
				234/1C	Private	Non Agriculture	200	1) Sunita W/o. Mallinath Kuchanur
				239	239A	Private	Agriculture (Dry)	2719
								1) Rakesh S/o. Bansilal Darabar
								2) Basavaraj S/o. Siddanagouda Patil
				240	240B	Private	Non Agriculture	140
								1) Sunita W/o. Mallinath Kuchanur
								2) Ajitakumar S/o. Balasaheb Kuchanur
					240/2	Private	Non Agriculture	135
								1) Kirti D/o. Amrutalal Bahete
								2) Aarti D/o. Amrutalal Bahete
								3) Avinash S/o. Amrutalal Bahete
				242	242/1	Private	Agriculture (Irrigated)	1958
								1) Kishorkumar S/o. Dwarakadas Darabar
					242/2	Private	Agriculture (Dry)	380
								1) Radhikaben W/o. Rajesh Darabar On Behalf Of Chairman Dwaraka Das Vithaldas Darabar Memorial Trust Bijapur
				1037	1037A	Private	Agriculture (Dry)	23
								1) Madhukanta W/o. Laxmidas Darabar
				1038/1 & 2	1038/2	Private	Agriculture (Dry)	818.36
								1) Hanamantappa S/o. Shivappa Giddannavar
				1038/3 B 1	1038/3B1	Private	Agriculture (Dry)	195
								1) Babu Laxman Jadhav
				1038/3B 2	1038/3B2	Private	Agriculture (Dry)	189
								1) Jaheda W/o. Hamadhusen Kannur
								2) Avvanna S/o. Muktappa Karjoshi
				1046	1046/X1,	Govt.	Agriculture (Dry)	2128
					1046/X2			Deputy Chief Engineer Railway Gage Conversion
					1046/X3			K.I.A.D.B Bangalore (Senior Divisional Manager Indian Oil Corporation Ltd Belgaum)
								1) Ranaji S/o. Appaji Gavali
								2) Girajappa S/o. Appaji Gavali
								3) Sonappa S/o. Appaji Gavali
				1047	1047/2	Govt.	Non Agriculture	108
								K.I.A.D.B.
				Village	Village	Govt.	Gaonthan	2768
								Village Gaonthan (Govt)
			12) Hanchinal	97	97/3/2F	Private	Agriculture (Dry)	32.02
								1) Abdulrajak S/o. Ahmadkhadi Hundekar
				99/A	99/1	Govt.	Agriculture (Dry)	3080
								Housing Board Layout Road Area
					99/2	Private	Agriculture (Dry)	771
								1) Annappa S/o. Gurappa Gouli
								2) Shankar S/o. Gurappa Gouli

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				102				3) Subhas S/o. Gurappa Gouli
								4) Suresh S/o. Gurappa Gouli
				102	Private	Agriculture (Dry)	2109.25	1) Sugalabai w/o Narasing Pungadawale
								2) Umesh S/o. Narsing Pungadawale (Gavali)
								3) Govind S/o. Narsing Pungadawale (Gavali)
								4) Prabu S/o. Narsing Pungadawale (Gavali)
								5) Raju S/o. Narsing Pungadawale (Gavali)
								6) Anjanabai W/o. Nandu Naik
								7) Manjula W/o. Rakamajijan Gouli
								8) Mahadevi W/o. Ramu Talapete
								9) Mahananda D/o. Narsing Pungadawale
								10) Subhash S/o. Naganath Gouli
				105				11) Satyappa S/o. Prabhu Gouli
				105/1A	Private	Non Agriculture (Commercial)	576	1) Padamu S/o. Heeru Chavan
				105/1B	Private	Agriculture (Dry)	525	1) Shiddappa Ningappa Bolegaon
				105/1C	Private	Agriculture (Dry)	2025	1) Gurupadappa S/o. Mahadevappa Katti
								2) Shivanand S/o. Mahadevappa Katti

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/15012/10]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.